

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 280]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई 2016—आषाढ़ 17, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2016

क्र.-बी-8-5-2016-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र. 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 23 फरवरी 2016 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 मौसम खरीफ एवं रबी के लिये अधिसूचना क्रमांक 189, दिनांक 23 अप्रैल 2016 जारी की गई है. जारी अधिसूचना में मौसम खरीफ 2016 के लिए संलग्न सूची अनुसार पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित फसलों की जिला रायसेन, बड़वानी, जबलपुर, विदिशा, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, सिंगरौली, भिण्ड, रतलाम, सीहोर, धार एवं देवास के लिये संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2016-2017		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की					
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा									
			00023	नोनिया बरेली	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00024	धोलश्री	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00025	किशनपुर	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00026	बिजनहाई	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00027	उडदमउ	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00028	छींद	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00029	सिलारीकला	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00030	उदयपुरा	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00031	रहली	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00032	किरगीखुर्द	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00033	बौरास	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00034	चौरास	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00035	अण्डिया	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00036	केलकच्छ	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00037	सतहरी	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00038	बीसावाडी	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		कोडाजमुनिया									
			00055	रिछावर	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00056	रम्पुरा	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00057	नयाखेड़ा	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00058	टिमरावन	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00059	खिरेटी	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00060	अलीवाडा	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00061	गोरखपुर	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00062	डुंगरिया	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00063	बरखन्दा	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00064	हाथीडाल	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00065	पडरिया खुर्द	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00066	चिखली	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00067	कोडा जमुनिया	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00068	करहैयाकला	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00069	पडरईकला	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		छातैर									
			00001	कुचवाड़ा	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00002	खुरसूरु	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00003	पिपलिया केवट	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00004	शहपुरा	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00005	नूरनगर	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00006	तिखावन	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00007	बनखेड़ी	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00008	आंवरिया	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00009	छातैर	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00010	लामटा	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00011	पिपलिया पुआरिया	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00012	भाडोन	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00013	कैतोधान	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00014	मोहडकला	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00015	सिमरिया	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-

		00016	गायव्यान	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	चंदली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00018	घाना बहेडिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00019	निबाडी		-	-	तुअर	-	-
		00020	बम्होरीभुआरी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00021	कल्हेडीकला		-	-	तुअर	-	-
		00022	पचामा		-	-	तुअर	-	-
	देवरी								
		00039	किरगीकला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00040	रमखिरिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00041	बीझा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00042	कानीवाझ	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00043	बारहकला	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00044	अनघेरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00045	पतई	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00046	केकडा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00047	साईखेडा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00048	पांजरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00049	पिपलिया कला	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00050	बूधनवाडा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00051	देवरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00052	बम्होरी देवरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00054	दिधावन	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00053	थाला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	गैरतगंज								
	गढी								
		00016	गढी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	हिनोतिया खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	बासादेही		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	पेनगंवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	सहजपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	पटी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	जुझारपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	रसीदपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	अंधियारी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	लवाझिर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	हिनोतिया खालसा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	रमपुराकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	खमरियागंज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	घाना		-	सोयाबीन	-	-	-
	गैरतगंज								
		00030	गैरतगंज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	छीरखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	बम्होरी गोदड		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	गुंदरई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	अगरियाकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	जैतपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	सिंहपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	हरदोट		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	आलमपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	पापडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	पडरियागंज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	भानपुरगंज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	समनापुर कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	सर्रा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	खुमारी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	देवरीगंज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	सईदपुर		-	सोयाबीन	-	-	-

		00047	टेहरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	रजपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	टेकापार खोडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	सोभापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	गोरखा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	सोडरपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
	देहगाव								
		00001	सुकरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	बाढेर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	खेजडामहलपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	चांदपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बनखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	साकल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	बनियाखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	किरौदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	हिनोतिया महलपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	आमखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	लिलगवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	भिलाडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	किसनपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	देवनगर(देहगाव)		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	मूडियाखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
	गौहरगंज								
	उमरावगंज								
		00036	थाना	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	खुकरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	उमरावगंज	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	तरावली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	बेगमपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	चिकलोदखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	मकोडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
	औ. गंज								
		00013	नूरगंज	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	मंडकासिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	इमलिया गोडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	हरई	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	दिवटिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00018	टिगरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	गोतमपुर कालोनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00020	बमनई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00023	बिनेका	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	तजपुरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00025	औ. गंज	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	तामौट	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	गौहरगंज								
		00027	पारखेडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00028	मंगरपूछ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	खसरोद	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	सलकनी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	भोजपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	मुरहारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	अंबाई	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	आशापुरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	नयापुरा सोडरपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	अमोदा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00052	इकलवाडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00053	डोब	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	पिलिया गोली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-

		00055	अगरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	
		00056	गौहरगंज	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00062	समनापुरकला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	
		00063	बोरपानी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00051	बौलखेडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
	चिकलोदकला								
		00035	शाहबादतिलेडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00043	करहोदा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00044	राजमउ	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00045	चिकलोदकला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00057	धामधूसर	धानसिंचित	-	-	-	-	
		00058	बडवाई	धानसिंचित	-	-	-	-	
		00059	नादोरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00060	बरबटपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00061	कामतोन कासिया	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	
	मंडीदीप								
		00001	पोलाहा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00003	बरखेडा सेतू	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00002	नांदोर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00004	कुमडी बिठोरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00005	दाहोद	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00006	पडोनिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00007	पिपलिया गज्जू		-	सोयाबीन	-	-	
		00008	मंडीदीप		-	सोयाबीन	-	-	
		00010	सराकिया		-	सोयाबीन	-	-	
		00011	इटायाकला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00012	सिमरई	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00032	पिपलिया लौ	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00033	सतलापुर	धानसिंचित	-	-	-	-	
		00034	कीरत नगर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
बरैली									
	खरगोन								
		00001	पांजरा काशीराम	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	
		00003	जामगढ़	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	
		00002	भगदेही	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00004	अहमदपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	
		00005	खैरीमूगली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	
		00006	रजबाडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	
		00007	नयागांव खुर्द	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	
		00008	खैरवाड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	
		00009	खरगोन	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	
		00010	ऊंटियाखुर्द	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00011	हरडोब	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	
		00012	सिनवाह	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00017	पिपरिया करनसिंह	धानसिंचित	-	-	-	-	
		00040	कुछार	धानसिंचित	-	-	-	-	
		00041	भौंडिया	धानसिंचित	-	-	-	-	
		00042	बेगनिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	
		00043	टोंगा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	
	बरैली								
		00013	उदयगिरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	
		00014	करमवाडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	
		00015	खपरिया खुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	
		00016	मैहरागांव कला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	
		00018	गगनवाड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	
		00019	चारगांव	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	
		00020	कामतोन	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
		00021	बरैली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	

		00022	धोखेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00023	कोटपार गणेश	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	आकोला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00025	समनापुर जागीर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00026	बांस पिपलिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00027	गोल	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00028	भारकच्छ खुर्द	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00029	दिमाडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00030	सेमरीघाट	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00031	मोतलसिर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00032	बगवाड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00036	भिलाडिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00037	गुरारिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	महेश्वर								
		00033	सतरावन	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00034	डुमर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00038	नयागांव कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	घाट पिपरिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00039	किनगी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00044	छवारा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00045	उटियाकला	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00046	केलकच्छ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	महेश्वर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00048	मगरधा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00049	पांजराविजयसिंह	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00050	सोजनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00051	खण्डराज	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00052	बम्होरीपाण्डा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00053	मांगरोल	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00054	बागपिपलिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00055	अलीगंज	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00056	बरहाकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	वाडी								
	वाडी								
		00001	रतनपुर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00002	चैनपुर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00003	दहलवाडा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00004	घांट	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00005	वाडी कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	पारतलाई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00007	गेहलपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00008	रानीपुरा खुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	बाबई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	अमरावदकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	समनापुर काछी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	कन्हवार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00013	मोकलवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	धुरेला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	पलकाश्री	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00016	सेमरीखोजरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00017	गाजीखेडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00018	मालझिर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00019	मांगरोल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00020	भैंसाया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	भारकच्छ								
		00023	शिवतला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	कुटनासिर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00025	सुल्तान नगर	धानसिंचित	-	-	-	-	-

		00026	सर्गोनिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00027	गुगलवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00028	जमुनिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	मनकापुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00030	धांधला	धानसिंचित	-	-	-	तुअर	-
		00031	सनखेडा	धानसिंचित	-	-	-	तुअर	-
		00032	देहरी कलां	धानसिंचित	-	-	-	तुअर	-
		00033	खपरियां कलां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00034	किशनपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	भारकच्छ कलां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00036	गडरवास	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00037	गौरामछवाई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00021	दिगवाड़	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	बेगमगंज								
	तुलसीपार								
		00021	महगवा टप्पा सनीहरझर		-	-	-	सोयाबीन	-
		00022	धवाज		-	-	-	सोयाबीन	-
		00023	करहोला		-	-	-	सोयाबीन	-
		00024	मरखेड़ा टप्पा		-	-	-	सोयाबीन	-
		00025	महआखेड़ा कलां		-	-	-	सोयाबीन	-
		00026	खिरेटी		-	-	-	सोयाबीन	-
		00027	पिपलिया पाठक		-	-	-	सोयाबीन	-
		00028	तुलसीपार		-	-	-	सोयाबीन	-
		00029	पाडाझिर		-	-	-	सोयाबीन	-
		00030	बीरपुर		-	-	-	सोयाबीन	-
		00031	बडगवा मुजप्ता		-	-	-	सोयाबीन	-
		00032	लखनपुर		-	-	-	सोयाबीन	-
		00033	बाँसादेही		-	-	-	सोयाबीन	-
		00034	मरखण्डी		-	-	-	सोयाबीन	-
		00035	भैसा		-	-	-	सोयाबीन	-
		00036	कुन्डा		-	-	-	सोयाबीन	-
		00037	घोघरी		-	-	-	सोयाबीन	-
		00038	मजगवा सानी		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00039	सुनेटी		-	-	-	सोयाबीन	-
		00040	पड़रिया राजाधार		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00041	मबई		-	-	-	सोयाबीन	-
		00042	पापडा		-	-	-	सोयाबीन	-
	बेगमगंज								
		00001	खजुरिया बर.गढी		-	-	-	सोयाबीन	-
		00002	भुरेक		-	-	-	सोयाबीन	-
		00003	कल्याणपुर		-	-	-	सोयाबीन	-
		00004	खैरी ता.चोका		-	-	-	सोयाबीन	-
		00005	कीरतपुर		-	-	-	सोयाबीन	-
		00006	सुनेहरा		-	-	-	सोयाबीन	-
		00007	हपसिली		-	-	-	सोयाबीन	-
		00008	सुमेर		-	-	-	सोयाबीन	-
		00009	कोकलपुर		-	-	-	सोयाबीन	-
		00010	माला		-	-	-	सोयाबीन	-
		00011	चन्दोरिया		-	-	-	सोयाबीन	-
		00012	कोहनिया		-	-	-	सोयाबीन	-
		00013	बिनायकपुर		-	-	-	सोयाबीन	-
		00014	गेहरास		-	-	-	सोयाबीन	-
		00015	पलोहा		-	-	-	सोयाबीन	-
		00016	चांदबढ़		-	-	-	सोयाबीन	-
		00017	उमरखोह		-	-	-	सोयाबीन	-
		00018	फतेहपुर		-	-	-	सोयाबीन	-
		00019	कस्बा बेगमगंज		-	-	-	सोयाबीन	-
		00020	परसौरा		-	-	-	सोयाबीन	-

	सुल्तानगंज	00043	बिहुआजागीर		सोयाबीन	-	-
		00044	रतनहारी		सोयाबीन	-	-
		00045	घानाकला		सोयाबीन	-	-
		00046	सुल्तानगंज		सोयाबीन	-	-
		00047	उदका		सोयाबीन	-	-
		00048	मरखेड़ा गुलाब		सोयाबीन	-	-
		00049	बम्हरी टीटोर		सोयाबीन	-	-
		00050	पिपलिया बिचोली		सोयाबीन	-	-
		00051	खमरिया ता नई गढिया		सोयाबीन	-	-
		00052	मोईया		सोयाबीन	-	-
		00053	जमुनिया ता.कोटी खो		सोयाबीन	-	-
		00054	टेकापार खोडी		सोयाबीन	-	-
		00055	सुनबाहा		सोयाबीन	-	-
		00056	कोटीखो		सोयाबीन	-	-
		00057	पन्दरभटा		सोयाबीन	-	-
		00058	नई गढिया		सोयाबीन	-	-
		00059	गुलबाड़ा		सोयाबीन	-	-
		00060	उमरहारी		सोयाबीन	-	-
		00061	बरासिलवानी शाहपुर सुल्तानपुर		सोयाबीन	-	-
रायसेन							
	दीवानगंज						
		00001	नीनोद		सोयाबीन	-	-
		00003	सरार		सोयाबीन	-	-
		00004	नरखेडा		सोयाबीन	-	-
		00002	जमुनियां		सोयाबीन	-	-
		00005	खोहा		सोयाबीन	-	-
		00006	मुडियाखेडा		सोयाबीन	-	-
		00007	सेमरा		सोयाबीन	-	-
		00008	अम्वाडी		सोयाबीन	-	-
		00009	दीवानगंज		सोयाबीन	-	-
		00010	गौदगढ		सोयाबीन	-	-
		00011	बडोदा		सोयाबीन	-	-
		00012	बागोद		सोयाबीन	-	-
		00013	शाहपुर		सोयाबीन	-	-
		00014	तिजालपुर		सोयाबीन	-	-
		00015	मेढकी		सोयाबीन	-	-
		00016	रातातलाई		सोयाबीन	-	-
		00017	कचनारीया		सोयाबीन	-	-
		00018	सुनारी		सोयाबीन	-	-
		00019	चिरहोली	धानसिंचित	सोयाबीन	-	-
		00020	सरचंपा	धानसिंचित	सोयाबीन	-	-
	रायसेन						
		00041	व्यावरा	धानसिंचित	सोयाबीन	-	-
		00042	पेमत	धानसिंचित	सोयाबीन	-	-
		00043	बिरहोली	धानसिंचित	सोयाबीन	-	-
		00044	वनगंवा	धानसिंचित	सोयाबीन	-	-
		00045	अल्ली	धानसिंचित	सोयाबीन	-	-
		00046	धनियाखेड़ी	धानसिंचित	सोयाबीन	-	-
		00047	रायसेन	धानसिंचित	सोयाबीन	-	-
		00048	महू पथरई	धानसिंचित	सोयाबीन	-	-
		00049	सलेरा		सोयाबीन	-	-
		00050	परवरिया	धानसिंचित	सोयाबीन	-	-
		00051	मेहगांव	धानसिंचित	सोयाबीन	-	-
		00052	उमरिया	धानसिंचित	सोयाबीन	-	-
		00053	सनखेडी		सोयाबीन	-	-

		00054	कानपोहरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	मुरेलकला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	डाबर इमलिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	भादनेर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	पठारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	मानपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	मुछेल	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	सांची								
		00021	बासखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	गुलगाव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	उचेर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	मडवाई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	सांची		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	ढकना चपना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	चिरहोली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	पग्नेश्वर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	बारला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	कोटरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	माखनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	सदालतपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	सेवासनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	सिलपुरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	गोपीसुर सतकुण्डा	धानसिंचित	-		-	-	-
		00036	सेहतगज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	पीपल खिरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	खरवाई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	रंगपुरा केसरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	नांद	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	सांचेत								
		00061	मउजागीर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	नयापुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	हिनीतिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	चिलवाहा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	बनखेडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	बड़ोदा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	अण्डोल-बहेड़	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	हकीमखेडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	पीपलखेडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	ग्यारसाबाद	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	सांचेत	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	नसरुद्दीनखेडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	कांठ	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	मुगांलिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	नकतरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	खण्डेरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	नरवर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	गुदावल	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	सिरसोदा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	सिलवानी								
	जैथारी								
		00058	फुलमार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	कोलूआ	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	हतोडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	धनगवां	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	चंदनपिपलिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	वेरूआ	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	कुंवरखेडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	बीकलपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-

		00067	छौंद	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00066	जैथारी	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00068	चंदपुरा			सोयाबीन			
	प्रतापगढ़								
		00047	तिनघरा			सोयाबीन			
		00048	खमरिया खुर्द	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00051	प्रतापगढ़	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00054	पोनार			सोयाबीन			
		00055	शालावरू			सोयाबीन			
		00046	खमकुआ			सोयाबीन			
		00049	सेमराखास			सोयाबीन			
		00050	देवरी हतनापुर			सोयाबीन			
		00052	गुदरई			सोयाबीन			
		00053	चैनपुर			सोयाबीन			
		00056	अमगवां			सोयाबीन			
		00057	नारायणपुर			सोयाबीन			
	बम्होरी								
		00001	रम्पुराकला			सोयाबीन			
		00003	पडरियाखुर्द	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00004	तुलसीपार			सोयाबीन			
		00005	सिंगपुरी			सोयाबीन			
		00008	गुप्तीहमीरपुर			सोयाबीन			
		00010	कस्वा बम्होरी			सोयाबीन			
		00011	गुदरई	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00012	दिल्हारी	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00013	कुण्डाली	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00016	पडरियाकला	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00017	सिंहपुर	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00018	सिमरिया खुर्द	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00019	सिवनी			सोयाबीन			
		00020	मनकवाडा			सोयाबीन			
		00002	कीरतपुर			सोयाबीन			
		00006	चिकली			सोयाबीन			
		00007	समनापुर			सोयाबीन			
		00009	पहेरिया	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00015	सियलवाडा			सोयाबीन			
	सिलवानी								
		00021	बम्होरी वर्धा			सोयाबीन			
		00022	वर्धा	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00023	उमरझिर	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00025	सिमरिया कला	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00026	साईखेडा	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00027	बटेर			सोयाबीन			
		00028	खैरी			सोयाबीन			
		00029	खमरिया मानपुर	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00031	जुनियां	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00032	सिलवानी	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00033	नीगरी	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00034	डुगरिया कला	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00036	जैतपुर	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00038	चीचोली			सोयाबीन			
		00039	देवरीजागीर	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00040	पठापौडी	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00041	देवरी (मनकापुर)			सोयाबीन			
		00024	चुन्हेटिया			सोयाबीन			
	सुल्तानपुर								
	इटखेडी								
		00013	किनगी	धानसिंचित					

		00014	गोरखपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	उड़दमऊ	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	ईटखेडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00018	खमरिया सोहनपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	बेरखेडी कलां	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	सुल्तानपुर								
		00003	खमरिया निमावर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00004	खपरिया खापा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	सेमरीखुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00007	बगासपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	घाटपिपरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	ताडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	राजलवाडी कलां	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	सुल्तानपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	सेमरीकलां	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय क्र	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
बड़वानी	अंजड़	अंजड़	00001	बड़दा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00002	अंजड़	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00003	बिलवा रोड़	-	-	-	-	मक्का	-
			00004	सुराना	-	-	-	-	मक्का	-
			00005	मोहीपुरा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00006	मंडवाड़ा	-	-	-	-	मक्का	-
			00007	तलवाड़ा डेब	-	-	-	-	मक्का	-
			00008	उचावद	-	-	-	-	मक्का	-
			00009	बिलवा डेब	-	-	-	-	मक्का	-
			00010	रणगांव डेब	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			ठीकरी	ठीकरी	ठीकरी	00001	चिचली	-	-	सोयाबीन
00002	ब्राह्मणगाँव	-				-	सोयाबीन	-	मक्का	-
00003	घटवा	-				-	-	-	मक्का	-
00004	दवाना	-				-	-	-	मक्का	-
00005	हत्तोला	-				-	-	-	मक्का	-
00006	बघाड़ी	-				-	सोयाबीन	-	मक्का	-
00007	बड़सलाय	-				-	-	-	मक्का	-
00008	बलगाँव	-				-	सोयाबीन	-	मक्का	-
00009	सेगवाल	-				-	सोयाबीन	-	मक्का	-
00010	खुरमपुरा	-				-	सोयाबीन	-	मक्का	-
00011	ठीकरी	-				-	सोयाबीन	-	मक्का	-
निवाली	निवाली	निवाली				00001	निवाली	-	-	सोयाबीन
			00002	बझर	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00003	फुलज्वारी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00004	पुरुषखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00005	खेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00006	दौदवाड़ा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00007	जोगवाड़ा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00008	घाटली	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00009	कुंजरी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00010	गवाड़ी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			पाटी	पाटी	पाटी	00001	गुड़ी	-	-	सोयाबीन
00002	पाटी	-				-	-	-	मक्का	बाजरा
00003	बोकराटा	-				-	-	-	मक्का	बाजरा
00004	गंधावल	-				-	-	-	मक्का	बाजरा
00005	डोंगरगाँव	-				-	-	-	मक्का	बाजरा
00006	ठेगच्या	-				-	सोयाबीन	-	मक्का	बाजरा
00007	पखाल्या	-				-	सोयाबीन	-	मक्का	बाजरा
00008	पाटी	-				-	-	-	मक्का	बाजरा
पानसेमल	पानसेमल	पानसेमल	00001	धावड़ी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00002	भातकी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00003	खेतिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

		00004	भड़गोन	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	जाहूर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00006	आमदा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00007	पानसेमल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00008	जलगोन	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	मनकुई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00010	सकराली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00011	दौंदवाड़ा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00012	मोयदा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	बडवानी							
	बडवानी							
		00001	भवती	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00002	सोन्दूल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00003	बडवानी खुर्द	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00004	क. बडवानी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	कसरावद	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00006	बगुद	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00007	बोरलाय	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00008	तलून	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	तलवाड़ा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00010	सजवानी	-	-	-	मक्का	-
		00011	पांचपूला उत्तर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00012	सिलावद	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	हिरकराय	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00014	केली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00015	मेणीमाता	-	-	-	मक्का	-
		00016	चिकल्या	-	-	-	मक्का	-
	राजपुर							
	राजपुर							
		00001	भागसूर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00002	कांसेल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00003	खड़की	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00004	दानोद	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	इन्द्रपुर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00006	उपला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00007	पलसूद	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00008	रेवजा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	मटली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00010	जोड़ाई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00011	पानवा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00012	जुलवानिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	जलगोन	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00014	राजपुर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00015	सनगांव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00016	पिपरी बु.	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00017	बकवाड़ी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00018	खजूरी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00019	चितावल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00020	रूई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00021	घुसगांव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00022	ओझर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00023	बालसमुद	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00024	सालीकला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00025	नागलवाड़ी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	वरला							
	वरला							
		00014	मालवन	-	सोयाबीन	-	मक्का	बाजरा
		00015	बाखरली	-	सोयाबीन	-	मक्का	बाजरा
		00016	वरला	-	सोयाबीन	-	मक्का	बाजरा

		00017	बलवाड़ी	-	सोयाबीन	-	मक्का	बाजरा
		00018	दुगानी	-	सोयाबीन	-	मक्का	बाजरा
		00019	गोरुघाटी	-	सोयाबीन	-	मक्का	बाजरा
		00020	धवली	-	सोयाबीन	-	मक्का	बाजरा
	संघवा							
	संघवा							
		00001	झोपाली	-	सोयाबीन	-	मक्का	बाजरा
		00002	बाकी उर्फ गोई	-	सोयाबीन	-	मक्का	बाजरा
		00003	पिसनावल	-	सोयाबीन	-	मक्का	बाजरा
		00004	संघवा	-	सोयाबीन	-	मक्का	बाजरा
		00005	आवली	-	सोयाबीन	-	मक्का	बाजरा
		00006	बाबदड़	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00007	झापड़ी पाइला	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00008	कालापाट	-	सोयाबीन	-	मक्का	बाजरा
		00009	झिरी जामली	-	सोयाबीन	-	मक्का	बाजरा
		00010	धनोरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00011	पाइछा	-	सोयाबीन	-	मक्का	बाजरा
		00012	चाचरिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	सिरवेल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2016-2017		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची							
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा		
जबलपुर	कंडम	इमलई	00002	बघराजी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00003	देवरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00004	पिपरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00006	गुरैया		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00007	फिफरी		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00008	भजिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00010	जुझारी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00011	तिलसानी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00012	देहरीखुर्द		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00013	नवरगवां		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00014	बीजापुरी		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00015	अमझर		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00016	लुहकरी		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00017	पडरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00018	मडई		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00019	कल्याणपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00020	खुक्खम		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00022	डोली		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00023	बडखेरा		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00024	जमगाव		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00025	कस्तुरा		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00026	रमपुरीकला		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00027	दरगढ		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00028	टुरका		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00029	सरसवा		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00030	कुरगवां		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00031	जैतपुरी		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00032	खिन्हा		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00033	बैरागी		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का			
			00034	लहसर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00035	टिकरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00036	घुघरा		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00037	बदुवा		धानअसिंचित	-	-	-	-			
				कंडम									
						00040	हाडीपानी		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00045	संजारी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
						00046	महगवां		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00047	सूपावारा		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का
						00048	कुवरहट		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का
						00049	गौरी		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का
						00051	कोसमडोंगरी		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का
						00052	झिरमिला		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00053	ददरगवां	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का
						00056	खैरी		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का
						00057	मोहनी		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00058	सहदरा		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का
						00059	चौरईकला		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00060	भैसवाही		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का
						00061	बिलटुकरी		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का

		00064	हरदलीकला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00063	झिरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00066	देवहरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00067	महेशपुरी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00068	महगवां		धानअसिचित	-	-	-	-
	जबलपुर								
	खमहरिया (बरेला)								
		0067	पिपरियाखुर्द	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0068	कैलवास		धानअसिचित	-	-	-	-
		0070	बारडा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0073	हिनीतिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		0074	खमरिया	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0076	सालीवाडा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0077	महगवां	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0078	पिपरिया कला		धानअसिचित	-	-	-	-
		0079	कुकरीखेडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		0080	बरेला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0081	बल्हवारा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0082	हिनीतिया	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0084	बैरागी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0085	परतला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0086	सिहोरा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0087	महगवां	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0094	धनपुरी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0095	बम्हनी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0096	मलारा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0099	कुडारी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0100	महगांव		धानअसिचित	-	-	तुअर	-
	जबलपुर-2								
		0016	तिलहरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		0029	बढैयाखेडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		0020	पिंडरई		धानअसिचित	-	-	-	-
		0021	पडुआ	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0022	पिपरिया (मेडिकल)	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0026	नान्हाखेडा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0030	मंगेली			-	-	सोयाबीन	तुअर
	बरगी								
		0031	तिखारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		0032	ढोडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		0033	मुकनवारा		धानअसिचित	-	-	-	-
		0034	बहोरीपार	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0035	निगरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		0036	जोगीघाना	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0037	हरई		धानअसिचित	-	-	-	-
		0038	मुहास	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0039	घाटपिपरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		0040	टीगन		धानअसिचित	-	-	-	-
		0041	रंगाझोरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		0042	तिनसा		धानअसिचित	-	-	-	-
		0043	तिनसी		धानअसिचित	-	-	-	-
		0044	पिपरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		0045	सालीवाडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		0046	सुकरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		0047	मंगेला		धानअसिचित	-	-	-	-
		0048	हल्की		धानअसिचित	-	-	-	-
		0051	बम्हनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		0052	सिनुवा		धानअसिचित	-	-	-	-

		0054	रीवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		0055	चौरई		धानअसिचित	-	-	-	-
		0057	सहजपुरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		0058	सालीवाडा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0059	बरगी		धानअसिचित	-	-	-	-
		0060	बंदरकोला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0061	सगडाझपनी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0062	चारघाट	धानसिचित	-	-	-	-	-
		0063	बरबटी		धानअसिचित	-	-	-	-
		0065	डुगरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		0066	खापागवारी		धानअसिचित	-	-	-	-
	पनागर								
	पनागर								
		00002	गुलैदा	धानसिचित	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00003	लखना	धानसिचित	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00004	कालाडुमर	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	खिरहनी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	इमलिया	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	निरदपुर	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	उदुबाकला	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	बम्हनीदी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	भिंडारीकला	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	मनकवारा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	सिंगोद	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	लीटी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	खमरिया	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	नुनियाकला	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	उमरिया चौबे	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	बम्हनीदा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	मुडिया	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	पनागर	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	मोहनिया	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	तिवारीखेडा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	रेपुरा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	कुसनेर	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	पिपरिया	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	बडखेरी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	बडखेरा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	पठरा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	उमरिया	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	महगवा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	इमलई	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	निऔरा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	छतरपुर	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	पडरी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	मौहारी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	धरहर	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	मुन्दरपुर	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	तिलगवा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00001	सिंगलदीप	धानसिचित	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
	महाराजपुर								
		00038	वीरनेर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	निपानिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	भरदा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	तिंदनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	पडरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00063	उदुवाखुद		धानअसिचित	-	-	-	-
		00064	सरसगवा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00065	गुडगवा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-

		00066	बरोदा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00067	बघौडा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00068	खिरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00069	झगरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00070	मोहास		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00071	नगना		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00072	मंगेला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00073	औरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00074	खिरियाकला		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00075	सूरतलाई	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00076	सूखा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00077	रेगवा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00079	कठौदा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00081	खजरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	पाटन								
			कटगी						
		00001	कटगी			सोयाबीन	तुअर	-	-
		00004	घटेरा			सोयाबीन	-	-	-
		00005	लुहारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	गनयारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	मुरई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	कुशली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	भिलौदा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	खजरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	रमखिरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00017	बगसवाही			सोयाबीन	-	-	-
		00018	तमौरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	कैमोरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	पड़रिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00021	सकरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	रियाना	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	सरौंद	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00027	दिधीरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	जमुनिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00030	गंजखमरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	बोरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	पौंडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	काकरखेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00034	कैथरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	सहसन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00036	करारीमनकुवारा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00037	बिलखरवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00038	आगासौंद	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	पाटन								
		00039	आरछा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00040	बिनेकी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00041	लुहारी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00042	बैनीखेडा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00043	उजरोड	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00044	नीची	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00045	स्तिरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00046	नुनसर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00047	बरोदा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00048	छैडी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00049	जरोद	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00050	उडना	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00051	मेठी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00052	झामर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-

		00053	खमौंद	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00054	बरौंद	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00055	पौडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00056	पाटन(न.पचा)	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00057	बूढीकोनी		-	-	तुअर	-	-
		00058	कोनीकला		-	-	तुअर	-	-
		00059	महुआखेडा		-	-	तुअर	-	-
		00060	गाड़ाघाट		-	-	तुअर	-	-
		00062	हरदुवा		-	-	तुअर	-	-
		00063	जूरीकला		-	-	तुअर	-	-
		00064	रिमझा		-	-	तुअर	-	-
		00065	(गुरु)पिपरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00066	सिमरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00067	घनेटा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00068	सहसन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00069	बरही	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00070	ग्वारी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00071	पडरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00072	भुवारा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00073	उडना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00074	हरदुवा		-	-	तुअर	-	-
		00075	पौडी		-	-	तुअर	-	-
		00076	कांटी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00078	मालाकला		-	-	तुअर	-	-
		00080	पौडीकला		-	-	तुअर	-	-
	मझौली								
	पोडा								
		00043	कूडा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00044	कंजई	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00047	खिल्नी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00048	चनोटा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00049	मुंरैठ	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00050	लमकना	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00051	हथलेवा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00052	लखनपुर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00053	बधेली	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00054	बरगवांदराची	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00055	झिगरई	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00056	हरंसिंधी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00057	सिमरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00058	भीटा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00059	संगोडी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00060	रिवझा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00061	पौडीकला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00062	पौडा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00064	बैहरकला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00065	गुरजी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00066	दर्शनी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00068	नांदघाट	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00069	तलाड	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00070	हरदुआ	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00071	गोरहा भिटौनी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00072	गांधीगंज	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00073	खुडावत	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00074	दिनारीखमरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00075	बरगौ	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00076	मोहला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00077	हरदुआकला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00078	धनगवां	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-

		00079	खलरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00080	महगवा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00081	डूडी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00082	छपरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00083	पहरूआ		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00084	मड़ई		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00085	बडखेरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00063	मरहटी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00067	रोसरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00045	कैलवास	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00046	दिवरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	मझौली								
		00001	मुडियामडौंद	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00003	उमरधा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00004	जोली	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00005	पडवार	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00006	अभाना	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00007	खितौला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00008	खाड़	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00009	मुडकरू	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00010	सिहोदा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00011	महगवा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00012	सिमरिया घाट	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00013	अमगवा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00014	उमरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00015	दिवरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00016	मझगवा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00018	दोनी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00020	रानीताल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00021	मझौली		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00022	हटौली		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00023	खबरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00025	पडरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00029	गढोरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00030	सुहजनी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00031	लुहारी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00032	छोतापाल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00040	चनगवा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00042	उमरिया (द्विरहा)		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00002	दुहतरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00017	पटोरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00019	कांकरदेही		धानअसिंचित	-	-	-	-
	शाहपुरा								
	चरगवा								
		00059	भीखमपुर		-	-	तुअर	-	-
		00060	देवरी पुरानी		-	-	तुअर	-	-
		00061	सुनवारा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00070	धरमपुरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00073	खुलरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00075	गगई		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00082	कटोरी		-	-	तुअर	-	-
	पिपरियाकला								
		00001	पथरिया		-	-	तुअर	-	-
		00009	सालीवाडा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00014	मेरेगाव		-	-	तुअर	-	-
		00015	पावला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00019	कूडाकला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00021	सुनाचर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-

		00038	सैलवारा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	भंडरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	खिरहनीकला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	छनगवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	कुन्ही(सतधारा)		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	देवरी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	बुढ़रा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	सिधुली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	मझगवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	सरोली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	कुसयारी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	नुन्जी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00050	घुघरी(कला)		धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	टिकरिया (नवीन)	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00052	अगरिया	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00053	घुटना		धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	दिवरी (नवीन)		धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	मकुरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	फनवानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	ढकरवाह	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	खभरा		-	-	-	-	-
		00059	कचनारी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	पडरियाकला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00061	मढा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00062	किवलारी		धानअसिचित	-	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर	00053	चिचल गुड़ा	-	-	-	-	मक्का	-
			00054	अलीराजपुर	-	-	-	-	मक्का	-
			00055	घोंघसा	-	-	-	-	मक्का	-
			00056	हरसवाट	-	-	-	-	-	बाजरा
			00057	वड़ी	-	-	-	-	मक्का	-
			00058	बड़ा उण्डवा	-	-	-	-	मक्का	-
			00060	इन्दरसिंह की चौकी	-	-	-	-	मक्का	-
			00061	रामसिंह की चौकी	-	-	-	-	मक्का	-
			00063	बन्द	-	-	-	-	मक्का	-
			00064	आम्बुआ	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00065	भोरदु	-	-	-	-	मक्का	-
			00066	चिचलाना	-	-	-	-	मक्का	-
			00067	अडवाड़ा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00068	कोटवु	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00069	कवठू	-	-	-	-	-	बाजरा
			00070	बोराना	-	-	-	-	-	बाजरा
			00072	लक्ष्मणी	-	-	-	-	-	बाजरा
			00073	चोगनवाट	-	-	-	-	-	बाजरा
			00074	भाणारावत	-	-	-	-	-	बाजरा
			00075	खण्डाला	-	-	-	-	मक्का	बाजरा
			00076	पलासदा	-	-	-	-	-	बाजरा
			00079	खारकआ	-	-	-	-	-	बाजरा
			00080	बेगड़ी	-	-	-	-	मक्का	बाजरा
			00082	मयाला	-	-	-	-	-	बाजरा
			00083	नानपुर	-	-	-	-	-	बाजरा
			00084	तीती	-	-	-	-	-	बाजरा
			00086	फाट:	-	-	-	-	मक्का	बाजरा
			00088	सेजगाव	-	-	-	-	-	बाजरा
			00087	मोरासा	-	-	-	-	-	बाजरा
			00089	आजन्दा	-	-	-	-	-	बाजरा
			00090	खरपई	-	-	-	-	-	बाजरा
			00091	कानपुर	-	-	-	-	-	बाजरा
			00092	जवानिया	-	-	-	-	-	बाजरा
			00093	आली	-	-	-	-	-	बाजरा
			00094	थोड़सिन्धी	-	-	-	-	-	बाजरा
			00095	बोरकआ	-	-	-	-	-	बाजरा
			00096	सुखी बावड़ी	-	-	-	-	-	बाजरा
			00097	मालवई	-	-	-	-	-	बाजरा
			00101	खेरवड़	-	-	-	-	मक्का	-
			00102	बड़दला	-	-	-	-	मक्का	-
			00071	गिराला	-	-	-	-	मक्का	बाजरा
	कट्ठीवाड़ा	कट्ठीवाड़ा	00002	अम्बार	-	-	-	-	मक्का	-
			00003	खामड़का	-	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00004	खेड़ाबड़ा	-	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00005	मोटीबड़ोई	-	-	-	-	मक्का	-
			00006	साजनपुर	-	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00007	ध्याना	-	धानअसिंचित	-	-	-	-

		00009	हवेलीखेड़ा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00011	इन्दलावाट		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00012	करेली महड़ी		-	-	-	मक्का	-
		00018	आमखुट		-	-	-	मक्का	-
		00019	पुनियावाट		-	-	-	मक्का	-
		00020	पस्टार		-	-	-	मक्का	-
		00021	आम्बी		-	-	-	मक्का	-
		00022	बड़ी सर्दी		-	-	-	मक्का	-
		00023	कुहा		-	-	-	मक्का	-
		00025	डुंगरगांव		-	-	-	मक्का	-
		00027	गुड़ा		-	-	-	मक्का	-
		00028	अकोला		-	-	-	मक्का	-
		00029	आगलगोटा		-	-	-	मक्का	-
		00030	चांदपुर		-	-	-	मक्का	-
		00031	मोरधी		-	-	-	मक्का	-
		00032	बोकड़िया		-	-	-	मक्का	-
		00033	झीझना		-	-	-	मक्का	-
		00034	आम्बाइबेरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00035	मोरियागांव		-	-	-	मक्का	-
		00036	फल्यामह		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00039	खुन्दर		-	-	-	मक्का	-
		00040	खेड़ा		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00041	अंधारकांच		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00042	अकलवा		-	-	-	मक्का	-
		00044	कालीबेल		-	-	-	मक्का	-
		00045	सोरवा		-	-	-	मक्का	-
		00046	दरखड़		-	-	-	मक्का	-
		00047	सुमन्यावाट		-	-	-	मक्का	-
		00048	मेहणी		-	-	-	मक्का	-
	जोवट								
		उदयगढ़							
		00001	टोकरचिझिरण		-	-	-	मक्का	-
		00002	कालुखेड़ा		-	-	-	मक्का	-
		00003	सागोटा		-	-	-	मक्का	-
		00004	टेमाची		-	-	-	मक्का	-
		00005	छोटा इटारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	हरदासपुर		-	-	-	मक्का	-
		00007	बड़ा इटारा		-	-	-	मक्का	-
		00008	बोरझाड़		-	-	-	मक्का	-
		00009	मोटाउमर		-	-	-	मक्का	-
		00010	देकालकुआ		-	-	-	मक्का	-
		00011	छोटी जुबारी		-	-	-	मक्का	-
		00012	कानाकाकड़		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	आम्बी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	जाम्बुखेड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	तलावद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	धामन्दा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	उदयगढ़		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	बावड़ी खुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	खण्डालाराव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	जामलीबड़ी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	थान्दला		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00022	टेरका		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00023	पानगोला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	अरण्डी फलिया		-	-	-	मक्का	-
		00025	बरड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	वेकलगाँवड़ी		-	-	-	मक्का	-
		00027	उत्ती		-	सोयाबीन	-	-	-

		00028	सियाली			सोयाबीन	-	-	-
		00029	कुण्डलवासा			सोयाबीन	-	-	-
		00030	कोल्याबरड़ा			सोयाबीन	-	-	-
		00031	सुईबड़ी			सोयाबीन	-	-	-
		00032	कोटड़ा			सोयाबीन	-	-	-
		00033	डेडरवासा			सोयाबीन	-	-	-
		00034	फुटतलाब बड़ा			सोयाबीन	-	-	-
		00035	आस्नाखेड़ी			सोयाबीन	-	-	-
		00036	बुडकुईबड़ी			सोयाबीन	-	-	-
		00037	पाटबड़ी			सोयाबीन	-	-	-
		00038	रतनपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00039	बोरी			सोयाबीन	-	-	-
		00040	चुलिया			सोयाबीन	-	-	-
	जोबट								
		00041	डेकाकुण्ड			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00042	थापली			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00043	रणजीतगढ़			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00044	देवलई			-	-	मक्का	-
		00045	कनवाड़ा			-	-	मक्का	-
		00046	पहाड़वा			-	-	मक्का	-
		00047	बलेड़ी			-	-	मक्का	-
		00048	कोसदुना			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00049	बेटरवासा			-	-	मक्का	-
		00050	भिलखेड़ी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00051	उन्डारी			-	-	मक्का	-
		00052	बिलासा			-	-	मक्का	-
		00053	किलाजोबट			सोयाबीन	-	-	-
		00054	घोंघस्या			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00055	जाली			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00056	बड़ागुड़ा			-	-	मक्का	-
		00057	सेमलाया			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00058	उबलड़			-	-	मक्का	-
		00059	खुटाजा			-	-	मक्का	-
		00060	बलदमंग			-	-	मक्का	-
		00061	हिरापुरबड़ी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00062	बड़ीखट्टाली			-	-	मक्का	-
		00063	छोटीखट्टाली			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00064	चमारबेगड़ा			-	-	मक्का	-
		00065	कन्दा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00066	देहदला			-	-	मक्का	-
		00067	कस्बाजोबट			-	-	मक्का	-
		00069	नेहतड़ा			-	-	मक्का	-
		00070	जामनी			-	-	मक्का	-
		00071	बाँड़ा बयड़ा			-	-	मक्का	-
		00072	उमरी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00073	सेवरिया			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00074	वागदी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00075	सिन्धी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00076	उम्दा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00077	सातखेड़ा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00078	डाबड़ी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00079	इन्दवन			सोयाबीन	-	मक्का	-
	भाभरा								
		चन्द्रशेखर आजाद नगर							
		00001	बरझर		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00002	बडगाँव		-	-	-	मक्का	-

		00003	बोरकुण्डिया		-	-	-	मक्का	-
		00004	महेन्द्रा		-	-	-	मक्का	-
		00005	बड़ाखुटाजा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00006	रिंगोल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00008	सेजावाड़ा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	अमनकुआ		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00010	डुंगलावानी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00011	सन्दा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00014	माथना		-	-	-	मक्का	-
		00015	भेदा		-	-	-	मक्का	-
		00016	काल्यावाव		-	-	-	मक्का	-
		00017	कोरियापान		-	-	-	मक्का	-
		00018	छोटाखुटाजा		-	-	-	मक्का	-
		00021	छोटीपोल		-	-	-	मक्का	-
		00022	बड़ीपोल		-	-	-	मक्का	-
		00023	रोलीगाँव		-	-	-	मक्का	-
		00027	गिरघा		-	-	-	मक्का	-
		00031	जवानिया		-	-	-	मक्का	-
		00032	देवली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	किलाना		-	-	-	मक्का	-
		00034	झीरण		-	-	-	मक्का	-
		00035	मायावाट		-	-	-	मक्का	-
	सोडवा								
			सोडवा						
		00110	बयड़िया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00111	धोरट		-	-	-	मक्का	-
		00114	चिखोड़ा		-	-	-	मक्का	-
		00115	रोशिया		-	-	-	मक्का	-
		00116	बड़ी उतावली		-	-	-	मक्का	-
		00122	घनोटा		-	-	-	-	बाजरा
		00125	उमराली		-	-	-	-	बाजरा
		00126	औड़ड़		-	-	-	-	बाजरा
		00127	मोराजी		-	-	-	-	बाजरा
		00131	मधुपल्लवी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00132	मुण्डला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00133	कोसारिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00136	कटवाड़		धानअसिचित	-	-	-	-
		00137	छातला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00138	अचपई		-	-	-	मक्का	-
		00142	उमरखड़		-	-	-	मक्का	-
		00146	मथवाड़		-	-	-	मक्का	-
		00154	बेजड़ा		-	-	-	-	बाजरा
		00155	उमरठ		-	-	-	-	बाजरा
		00156	साकड़ी		-	-	-	-	बाजरा
		00157	गुलवट		-	-	-	-	बाजरा
		00159	कुकड़िया		-	-	-	-	बाजरा
		00160	टेमला		-	-	-	-	बाजरा
		00161	सोण्डवा		-	-	-	-	बाजरा
		00162	बयड़िया		-	-	-	-	बाजरा
		00163	दरकली		-	-	-	-	बाजरा
		00164	बोड़गाँव		-	-	-	-	बाजरा
		00165	खामट		-	-	-	-	बाजरा
		00166	वालपुर		-	-	-	-	बाजरा
		00167	फडतला		-	-	-	-	बाजरा
		00168	गुनेरी		-	-	-	-	बाजरा
		00171	सोलिया		-	-	-	-	बाजरा
		00172	छोटी हथवी		-	-	-	-	बाजरा
		00173	उन्हाला		-	-	-	-	बाजरा
		00174	तिखोला		-	-	-	-	बाजरा
		00175	कुलवट		-	-	-	-	बाजरा
		00176	सेमलानी		-	-	-	-	बाजरा
		00177	ककराना		-	-	-	-	बाजरा

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2016-2017		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार						
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा	
हिन्दवाडा												
मूल अधिसूचना क्रमांक 189, दिनांक 23.4.2016 में निम्नलिखित हल्कों के समक्ष अंकित फसलों को जोड़ा जाता है।												
	अमरवाडा											
	अमरवाडा-1											
			00016	हिवरासानी				सोयाबीन				
			00017	चिखली मुकासा				सोयाबीन		मक्का		
			00038	कुदवारी				सोयाबीन		मक्का		
			00042	अकलमा						मक्का		
			00045	हिरी मुकासा						मक्का		
			00050	करबडोल						मक्का		
			00068	बिनेकी				सोयाबीन		मक्का		
	अमरवाडा-2											
			00002	जुगावानी						मक्का		
			00011	साजवा				सोयाबीन				
			00012	सोनपुर				सोयाबीन				
			00020	उमरिया				सोयाबीन				
			00021	बांका				सोयाबीन				
			00022	चारनखापा				सोयाबीन				
	पौनार											
			00051	कोडरा				सोयाबीन		मक्का		
			00052	सेजा				सोयाबीन		मक्का		
			00053	बोरी माल				सोयाबीन		मक्का		
			00054	लखनवाडा				सोयाबीन				
			00055	दुलारा				सोयाबीन		मक्का		
			00056	बन्धानी				सोयाबीन		मक्का		
			00057	जुगावाडा				सोयाबीन		मक्का		
			00058	भाजीपानी				सोयाबीन				
			00059	बारहहीरा माल				सोयाबीन				
			00060	पुतरा				सोयाबीन				
			00061	कुगरिया रैयत				सोयाबीन				
			00062	धरानवाडा				सोयाबीन		मक्का		
			00063	पौनार				सोयाबीन		मक्का		
			00064	छुआदेही				सोयाबीन		मक्का		
			00065	छुई				सोयाबीन		मक्का		
			00066	चन्दनगाँव				सोयाबीन		मक्का		
	सिंगोडी											
			00023	नन्दौरी				सोयाबीन		मक्का		
			00024	कोल्हिया				सोयाबीन		मक्का		
			00025	मन्दानगढ				सोयाबीन				
			00026	लखुआ				सोयाबीन		मक्का		
			00027	राहीवाडा				सोयाबीन		मक्का		
			00028	बाबई				सोयाबीन		मक्का		
			00029	पटनिया				सोयाबीन				
			00030	वडेगाँव				सोयाबीन				
			00031	बाका मुकासा				सोयाबीन		मक्का		

		00032	सिंघोली		सोयाबीन		मक्का
		00033	इजोला		सोयाबीन		
		00034	खकरो घोरई		सोयाबीन		मक्का
		00035	गुरैया		सोयाबीन		मक्का
		00036	खामीहिरा		सोयाबीन		मक्का
		00037	चिमौआ				मक्का
		00039	तेन्दनी माल		सोयाबीन		मक्का
		00040	मानेगा		सोयाबीन		मक्का
		00041	बांदरा		सोयाबीन		मक्का
उमरेठ							
	उमरेठ						
		00010	शोलादेही		सोयाबीन		मक्का
		00011	बिजोरी गुमाई		सोयाबीन		मक्का
		00012	गांजलकोई		सोयाबीन		मक्का
		00013	पाडा				मक्का
		00014	सोनपिपरी				मक्का
		00019	मोहार				मक्का
		00020	सुनगा				मक्का
		00040	मानकादेही खुर्द				मक्का
		00041	मानिया खापा				मक्का
		00042	खन्सपाडा				मक्का
		00043	कुन्डाली कलों				मक्का
	मोरडोंगरी						
		00026	चान्दामेटा कलों				मक्का
		00027	निमकुही				मक्का
		00028	खजरी अन्तू		सोयाबीन		मक्का
		00029	इटाया		सोयाबीन		मक्का
		00030	मोरडोंगरी खुर्द				मक्का
		00031	मोरडोंगरी कलों				मक्का
		00032	मान्कई माल		सोयाबीन		मक्का
		00033	पटपडा		सोयाबीन		मक्का
		00034	अपलरा		सोयाबीन		मक्का
		00035	ताल पिघरिया		सोयाबीन		मक्का
		00036	तिगाई		सोयाबीन		मक्का
		00037	परसोली		सोयाबीन		मक्का
		00038	कान्करगाँव				मक्का
		00039	मुसादेही		सोयाबीन		मक्का
		00001	कोठार				मक्का
		00002	खारापिण्डरई उर्फ छाबडी				मक्का
		00003	सिन्दरई गुरैयाथर				मक्का
		00004	मैठकी				मक्का
		00005	साजया				मक्का
		00006	दबक				मक्का
		00007	सेलपरास				मक्का
		00024	मानकादेही कलों		सोयाबीन		मक्का
		00025	घारगाँव		सोयाबीन		मक्का
धान्द							
	घाँह						
		00017	धियाली खुर्द				मक्का
		00018	हरनाखेडी				मक्का

	कपुर्दा								
		00005	रोसगढ़		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00006	मंडई		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00007	जमुनिया		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00008	गोपालपुर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	आमाबीर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00019	कण्डा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00020	रुथनी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00021	पिपरिया मालसिंग		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00022	बिहारावाडा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00023	सलखनी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00024	माधोवाडा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00025	खिचिरी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00026	कपुर्दा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00027	धौरावाडी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00028	सिमरिया कली		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00029	फुटेरा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00030	समसयाडा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00032	डुगरिया		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00033	सीतापार		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	धौरई								
		00010	लोहरा		-	-	-	मक्का	-
		00011	खट्खट		-	-	-	मक्का	-
		00012	बान्धुनवाडा		-	-	-	मक्का	-
		00013	भारह बरियारी		-	-	-	मक्का	-
		00016	सिरेगाँव		-	-	-	मक्का	-
		00017	सिखडी		-	-	-	मक्का	-
		00034	धौरई न पंचायत		-	-	-	मक्का	-
		00035	गुँदा		-	-	-	मक्का	-
		00036	नदीगाँव मकरिया		-	-	-	मक्का	-
		00037	मुआरी		-	-	-	मक्का	-
		00038	मरकाहाडी		-	-	-	मक्का	-
		00039	झिलमिली		-	-	-	मक्का	-
		00040	सिहोरा माल		-	-	-	मक्का	-
		00041	केरिया		-	-	-	मक्का	-
	छिन्दवाडा								
		छिन्दवाडा-1							
		00019	छिन्दवाडा		-	-	-	मक्का	-
		00020	सिमनीप्राणमोती		-	-	-	मक्का	-
		00022	अंजमिया		-	-	-	मक्का	-
		00023	सहगडुआ		-	-	-	मक्का	-
		00029	झिरसिंगा		-	-	-	मक्का	-
		00030	धारगाँव प्रहलाद		-	-	-	मक्का	-
		00032	पिपरिया साखू		-	-	-	मक्का	-
		00034	सारना		-	-	-	मक्का	-
		00035	बनगाँव		-	-	-	मक्का	-
		00036	जमुनिया		-	-	-	मक्का	-
		00038	सिहोरा		-	-	-	मक्का	-
		00039	डंगायानी पिपरिया		-	-	-	मक्का	-
		00040	थांवरी टेका		-	-	-	मक्का	-
		00041	मोहगाँव		-	-	-	मक्का	-

		00042	भुनिस				मक्या	-	
		00043	काकई				मक्या	-	
		00045	बोहना				मक्या	-	
		00047	मेर				मक्या	-	
		00048	धनिहवा कालो				मक्या	-	
		00049	खैरी भुनाई				मक्या	-	
		00052	धनिहवा खुर्द		सोयाबीन		मक्या	-	
		छिन्दवाडा-2							
		00001	राहेना कालो				मक्या	-	
		00002	भैसादण्ड				मक्या	-	
		00003	धुनिया उदना				मक्या	-	
		00004	गुरिया				मक्या	-	
		00005	पौआना				मक्या	-	
		00006	गंगीयाडा				मक्या	-	
		00007	मानेगाँव		सोयाबीन		मक्या	-	
		00008	परतला				मक्या	-	
		00009	खजरी		सोयाबीन		मक्या	-	
		00010	खायाभाट				मक्या	-	
		00011	फुलाडा जगत				मक्या	-	
		00012	लौनिया करवल				मक्या	-	
		00013	चन्दनगाँव		सोयाबीन		मक्या	-	
		00014	सर्ग				मक्या	-	
		00015	इमलीखेडा				मक्या	-	
		00016	सारसयाडा				मक्या	-	
		00017	बोरिया				मक्या	-	
		छिन्दवाडा-3							
		00018	पखडिया		सोयाबीन		मक्या	-	
		00021	सोनाखार				मक्या	-	
		00050	रामखटी				मक्या	-	
		00051	घाट पिपरिया				मक्या	-	
		00053	उमरिया ईसरा				मक्या	-	
		00054	रंगीना खापा		सोयाबीन		मक्या	-	
		00055	पुलपुलकोह				मक्या	-	
		00056	झाङरिया खटिया				मक्या	-	
		00057	धन्निया				मक्या	-	
		00058	शहपूडा				मक्या	-	
		00059	सुसरई				मक्या	-	
		00060	पिन्डरई				मक्या	-	
		00061	भानादेही				मक्या	-	
		00062	मालनयाडा		सोयाबीन		मक्या	-	
		00063	सोनपुर				मक्या	-	
		00064	विजेपानी				मक्या	-	
		00065	कोटलवरी		सोयाबीन		मक्या	-	
		00066	थावरी कालो		सोयाबीन		मक्या	-	
		00067	कुहिया				मक्या	-	
		00068	भाजीपानी कालो				मक्या	-	
		00069	खापा कालो		सोयाबीन		मक्या	-	
		00070	उमरहर		सोयाबीन		मक्या	-	
		00071	मदनपुर		सोयाबीन		मक्या	-	
		00072	घारगाँव		सोयाबीन		मक्या	-	
		00073	साख		सोयाबीन		मक्या	-	

		00074	उमैगाँव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00075	गाँवरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	जुन्नारदैय							
	जुन्नारदैय							
		00036	तैलीयट	-	-	-	मक्का	-
		00044	विलावर कलौ	-	-	-	मक्का	-
		00046	खमरा कलौ	-	-	-	मक्का	-
		00048	रिछडा	-	-	-	मक्का	-
		00054	तूमडा	-	-	-	मक्का	-
		00085	खैरयानी	-	-	-	मक्का	-
	दमुआ							
		00008	विद्येहरी	-	-	-	मक्का	-
		00043	कौयाकिरी	-	-	-	मक्का	-
	नयेगाँव							
		00056	अपरिया	-	-	-	मक्का	-
		00057	नरकाडाना	-	-	-	मक्का	-
		00061	बोरदेई खुर्द	-	-	-	मक्का	-
		00063	सुरनादेही कलौ	-	-	-	मक्का	-
		00064	शिखलार	-	-	-	मक्का	-
		00065	बरेलीपार	-	-	-	मक्का	-
		00066	कोरपानी खुर्द	-	-	-	मक्का	-
		00067	मोरछी	-	-	-	मक्का	-
		00069	बिन्दरई	-	-	-	मक्का	-
		00070	दाकरवाडी	-	-	-	मक्का	-
		00071	सातनवारी	-	-	-	मक्का	-
		00072	औकिया	-	-	-	मक्का	-
		00073	खिडकी कनेरी	-	-	-	मक्का	-
		00074	बेलगाँव साल	-	-	-	मक्का	-
		00075	जम्बाकिराडी	-	-	-	मक्का	-
		00076	सुमफाल	-	-	-	मक्का	-
		00077	भलोडिया खुर्द	-	-	-	मक्का	-
		00078	कढकुही	-	-	-	मक्का	-
		00081	डोडासेमर	-	-	-	मक्का	-
		00080	पर्वत घोघरी	-	-	-	मक्का	-
	तामिया							
	तामिया							
		00019	घटलिंगा	-	-	-	मक्का	-
		00032	विजौरी	-	-	-	मक्का	-
		00033	तामिया	-	-	-	मक्का	-
		00034	भौंडियापानी	-	-	-	मक्का	-
		00038	बोकी	-	-	-	मक्का	-
		00039	जोगा मुआर	-	-	तुआर	मक्का	-
		00042	कारेआम रातेड	-	-	-	मक्का	-
		00044	लोहिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00045	कुम्हडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00048	घोपना	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00049	घोराडीगरी	-	-	-	मक्का	-
		00050	विजौरी पठार	-	-	-	मक्का	-
		00051	खिरेटी माल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	देलखरि							
		00001	साधरयानी	-	-	तुआर	-	-

		00002	झिरपा			सोयाबीन	तुअर	-	-
		00003	माहुलाझिर			सोयाबीन	तुअर	-	-
		00004	गन्धीबोदोन कछार			सोयाबीन	तुअर	-	-
		00006	जमुनिया			सोयाबीन	तुअर	-	-
		00008	बाबलपानी			सोयाबीन	-	-	-
		00009	खायासानी			सोयाबीन	-	-	-
		00010	नामगाँव		धामअसिधिल	सोयाबीन	-	-	-
		00021	फुसीकाना					मधका	-
		00022	जामुनडांगा					मधका	-
		00005	अपहोनी			सोयाबीन	तुअर	-	-
		00007	बन्होरी खुर्द			सोयाबीन	तुअर	-	-
		00017	खाप खुर्द			सोयाबीन	तुअर	मधका	-
		00018	देलाखारी			सोयाबीन	-	-	-
		00020	दौरियाखेडा				तुअर	मधका	-
		00023	बागई				-	मधका	-
	परसिया								
			परसिया						
		00004	बेलगाँव			सोयाबीन	-	मधका	-
		00006	मायावाडी			सोयाबीन	-	-	-
		00007	बरारिया			सोयाबीन	-	-	-
		00008	पगारा			सोयाबीन	-	मधका	-
		00009	पुवला पठार				-	मधका	-
		00010	सोना पठार				-	मधका	-
		00011	कारी डोंगरी			सोयाबीन	-	मधका	-
		00012	डुंगरिया			सोयाबीन	-	-	-
		00013	सेमरताल			सोयाबीन	-	मधका	-
		00014	कोहका			सोयाबीन	-	मधका	-
		00015	दमुआ			सोयाबीन	-	मधका	-
		00016	धमनिया			सोयाबीन	-	-	-
		00019	पैजनवाडी			सोयाबीन	-	मधका	-
		00020	सिरगोरी खुर्द			सोयाबीन	-	मधका	-
		00038	हरई			सोयाबीन	-	-	-
		00042	जाटा छपर			सोयाबीन	-	-	-
		00043	भाजीपाली			सोयाबीन	-	-	-
		00047	घोघरी रैथल			सोयाबीन	-	मधका	-
		00049	झिरसाकोह			सोयाबीन	-	मधका	-
	सिरगोरा								
		00017	लोहारी बाघरी			सोयाबीन	-	मधका	-
		00018	देवरी			सोयाबीन	-	मधका	-
		00023	छिन्दा			सोयाबीन	-	-	-
		00024	सेठिया			सोयाबीन	-	-	-
		00026	मण्डला			सोयाबीन	-	मधका	-
		00028	बागबघिया			सोयाबीन	-	मधका	-
		00029	जमुनिया पठार			सोयाबीन	-	मधका	-
		00030	उरधन			सोयाबीन	-	-	-
		00031	तुमडी			सोयाबीन	-	मधका	-
		00032	झुरे माल			सोयाबीन	-	मधका	-
		00034	पलदवाडा			सोयाबीन	-	मधका	-
		00035	हरनभटा			सोयाबीन	-	मधका	-
		00036	पिन्डरई			सोयाबीन	-	मधका	-
		00037	डाला				-	मधका	-

		00050	सहपानी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00051	बैरी चैत	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00052	फुटेरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00025	सिरगौरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00033	तेन्दुखेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	पाण्डुर्णा							
			नांदनवाडी					
		00007	धिमनखापा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	आमघाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	पलासपानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	धनीहा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	कुण्डाली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	घोसरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	डोलनखापा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	श्रीमखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	मांगुरली	-	सोयाबीन	-	-	-
			पांडुरना					
		0050	देवखापा	-	सोयाबीन	-	-	-
	बिछुआ							
			खमारपानी					
		00004	पनियारी	-	-	तुअर	-	-
		00009	मुगनापार	-	-	-	मक्का	-
		00010	सोनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	चन्दिवापुर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00012	घोराह	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	घनेगाँव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00014	चिघगाँव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	आम्बाझिरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	जमुनिया खुर्द	-	-	-	मक्का	-
		00017	घाट कामठा	-	-	-	मक्का	-
		00018	खमारपानी	-	-	-	मक्का	-
		00019	गढेयानी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00047	पुलपुलडोह	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00048	दधगाँव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	देवरी	-	-	-	मक्का	-
		00050	धुयेपानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	कुण्डई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			बिछुआ					
		00020	कपूरखेडा	-	-	-	मक्का	-
		00021	अम्बाडी	-	-	-	मक्का	-
		00022	तुनडागडी	-	-	-	मक्का	-
		00023	पानाभायरी	-	-	-	मक्का	-
		00024	आमाकुही	-	-	-	मक्का	-
		00026	सागरभीह	-	-	-	मक्का	-
		00028	बिछुआ	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00030	उल्हावाडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00031	करेल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00032	जमुनिया कलों	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00033	खमरा	-	-	-	मक्का	-
		00034	पिपरिया कलों	-	-	-	मक्का	-
		00035	किसनपुर	-	-	-	मक्का	-

		00036	खैरीमाली				मक्या	
		00037	सुरंगी				मक्या	
		00038	शोभा				मक्या	
		00039	भ्यारीमाल				मक्या	
		00040	धौडा माल				मक्या	
		00041	गुलतरा				मक्या	
		00042	पाथरी				मक्या	
		00043	खमरिया माल				मक्या	
		00044	सिलोटा कलौ				मक्या	
		00045	सुरयानी				मक्या	
		00046	कढैया				मक्या	
	मोहखेडा							
	इफाल बिहरी							
		00050	कामठी			सोयाबीन	मक्या	
		00051	धारगोय करबल			सोयाबीन	मक्या	
		00052	राजगोय			सोयाबीन	मक्या	
		00055	खिलीकलौ			सोयाबीन	मक्या	
		00058	भाड्यावा			सोयाबीन	मक्या	
		00061	अडवार			सोयाबीन	मक्या	
		00062	इफालबिहरी			सोयाबीन	मक्या	
		00063	मड			सोयाबीन	मक्या	
		00066	हिरा धानूद्व			सोयाबीन	मक्या	
		00067	गोरखपुर			सोयाबीन	मक्या	
		00068	सारगबिहरी			सोयाबीन	मक्या	
		00069	हिरिया			सोयाबीन	मक्या	
		00073	ग्यारा			सोयाबीन	मक्या	
		00078	रंगारी तालाब			सोयाबीन	मक्या	
	सांयरी							
		00001	उमरडोह				मक्या	
		00002	धगडिया माल				मक्या	
		00004	बेलखेडा			सोयाबीन	मक्या	
		00006	मेहलारी बागोल				मक्या	
		00011	परासिया बैलूल				मक्या	
		00012	मैनीखापा				मक्या	
		00013	पूराभीह				मक्या	
		00014	लाधापोथरी				मक्या	
		00015	शोधिदयाडी माल				मक्या	
		00016	मडेहा				मक्या	
		00017	परधाल घोघरी				मक्या	
		00018	जुनापानी माल				मक्या	
		00019	टेमनी कलौ				मक्या	
		00020	करला कलौ			सोयाबीन	मक्या	
		00022	सांयरी			सोयाबीन	मक्या	
		00024	पालाखेडा			सोयाबीन	मक्या	
		00025	अम्बामाली			सोयाबीन	मक्या	
		00029	महलपुर			सोयाबीन	मक्या	
		00030	सांरोठ			सोयाबीन	मक्या	
		00031	सलनूर			सोयाबीन	मक्या	
		00039	तियडा कामथ			सोयाबीन	मक्या	
	सांसर							
	लोधीखेडा							

		00031	धीलवी				तुअर		
		00033	वाघोडा				तुअर		
		00037	प्रोदी				तुअर		
		00039	सिहरा खण्डसामवा				तुअर		
		00039	रासी				तुअर		
		00040	बिसना				तुअर		
		00041	भामहनी				तुअर		
		00042	मैहरी				तुअर		
		00043	रङ्गाही बोरगाँव				तुअर		
		00044	लोधीखेडा				तुअर		
		00045	बोरगाँव				तुअर		
		00049	बानायाकोडा				तुअर		
		00052	मेहराखापा				तुअर		
		00053	दोकाडोह				तुअर		
		00054	सायखेडा				तुअर		
		00055	परुवापार				तुअर		
		00056	निनखेडा				तुअर		
		00057	खैरी सायगाँव				तुअर		
		00060	बालनूर				तुअर		
		00061	सायगाँव				तुअर		
		00062	भालेगाँव				तुअर		
			सोसर						
		00004	कोपडायाही खुर्द				तुअर		
		00008	पांगडी				तुअर		
		00011	बिजुआ बग्ग				तुअर		
		00012	घहेला माल				तुअर		
		00014	उटेकोटा				तुअर		
		00015	निमनी				तुअर		
		00017	खाण्डसियनी				तुअर		
		00018	सोसर				तुअर		
		00019	कटैया				तुअर		
		00020	जाम				तुअर		
		00021	देवली				तुअर		
		00024	मुंगनापार				तुअर		
		00030	घोघरी खापा				तुअर		
			हरई						
			धनौरा						
		00015	दामाखोह				तुअर		
		00019	सगोमिया			धानअसिधित			
			बटकाखापा						
		00001	मदी			धानअसिधित	सोयाबीन	तुअर	मक्का
		00002	चिलक			धानअसिधित			
		00005	अतरिया			धानअसिधित			मक्का
		00007	कामठी			धानअसिधित			
		00010	सालदाना						मक्का
		00030	चोपना			धानअसिधित	सोयाबीन	तुअर	मक्का
		00031	देवरी			धानअसिधित			मक्का
		00033	चुरी खुर्द			धानअसिधित		तुअर	मक्का
		00034	सामरबोह			धानअसिधित			
			हडाई						
		00053	अहरवाडा			धानअसिधित			मक्का

		00054	खमसरा	धानअसिचित	-	-	मक्यका	-
		00055	रैयाराय	धानअसिचित	-	-	मक्यका	-
		00056	कोहपानी	धानअसिचित	-	-	मक्यका	-
		00057	धरमी	धानअसिचित	-	-	मक्यका	-
		00058	गौरधानी	-	-	-	मक्यका	-
		00059	करेर	-	-	-	मक्यका	-
		00060	छाला फलों	धानअसिचित	-	-	मक्यका	-
		00061	बसुरिया खुर्द	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्यका	-
		00062	राजठाना	-	सोयाबीन	-	मक्यका	-
		00063	सेजयाहा कलों	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्यका	-
		00064	हरई	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्यका	-
		00065	बुढैना	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्यका	-
		00066	जमुनिया	-	सोयाबीन	-	मक्यका	-
		00068	खामा	धानअसिचित	-	-	मक्यका	-
		00067	सुरला	-	-	-	मक्यका	-
	हरई							
		00035	रालोमाटी	धानअसिचित	-	-	मक्यका	-
		00036	बुढैना	धानअसिचित	-	-	मक्यका	-
		00037	ठिन्दा	धानअसिचित	-	-	मक्यका	-
		00038	परलापुर	धानअसिचित	-	-	मक्यका	-
		00039	घोघरी	धानअसिचित	-	तुअर	मक्यका	-
		00041	मोहरिय	धानअसिचित	-	-	मक्यका	-
		00043	तेन्दूखेडा	-	सोयाबीन	-	मक्यका	-
		00044	तेन्दनी	-	सोयाबीन	-	मक्यका	-
		00045	भेडा	-	-	-	मक्यका	-
		00047	अमारी	धानअसिचित	सोयाबीन	तुअर	मक्यका	-
		00048	हरई	धानअसिचित	सोयाबीन	तुअर	मक्यका	-
		00049	बारगी	धानअसिचित	-	-	मक्यका	-
		00050	मुआरसानी	धानअसिचित	-	-	मक्यका	-
		00051	साठिया	-	-	-	मक्यका	-
		00052	सलैया बुलाकी	धानअसिचित	सोयाबीन	तुअर	मक्यका	-

		00026	भरवी						
		00027	भाखरा						
		00028	वमुआ						
		00029	घोराघाड़ी खुर्ब						
		00030	करभोहनी बंदी						
		00031	मन्दीरा						
		00033	हिरवागढ़						
		00034	करहिया						
		00035	छिन्दी धामध						
		00037	बान्हनवाड़ा						
		00038	पुरना खालसा						
		00041	माली						
	तामिया								
	तामिया								
		00041	सिधौली					मक्का	
		00043	हरा कछार					मक्का	
		00047	मानकादेवरी						
		00052	खुलसान						
		00053	हिरा पठार						
	परासिया								
	परासिया								
		00032	जमुनिया कल्लों		-	सोयाबीन		मक्का	-
		00033	खमरा		-	-		मक्का	-
		00034	पिपरिया कल्लों		-	-		मक्का	-
		00035	शिसनपुर		-	-		मक्का	-
		00036	खैरीमाली		-	-		मक्का	-
		00037	सुरंगी		-	-		मक्का	-
		00038	मोया		-	-		मक्का	-
		00039	ग्यारीमाल		-	-		मक्का	-
		00040	थोटा माल		-	-		मक्का	-
		00041	गुमतरा		-	-		मक्का	-
		00042	पाथरी		-	-		मक्का	-
		00043	खमरिया माल		-	-		मक्का	-
		00044	सिलोटा कल्लों		-	-		मक्का	-
		00045	सुरियाली		-	-		मक्का	-
		00046	कडिया		-	-		मक्का	-
	पाण्डुरी								
	मांछनवाड़ी								
		00002	पठारा						
		00012	छाबड़ी						
		00022	राजडींगरी			सोयाबीन			
		00023	चाटवा			सोयाबीन			
		00024	सिराठा			सोयाबीन			
		00028	सिल्लेवानी						
		00031	भूली						
		00035	लेन्डोरी						
		00036	कामठी कला						

		00040	पीपरपानी		सोयाबीन		
	पांडुरना						
		00042	घुड़नखापा		सोयाबीन		
		00048	दिधखेड़ा				
		00049	भंदासगोदी				
		00058	उमरीकला				
	बिफुआ						
	बिफुआ						
		00001	मोहपानी				
		00002	कून्डा रैयत				
		00003	खदबेली				
		00025	झामटा		सोयाबीन		
		00027	गोनी				
		00048	चन्हिया कलौ	-	-	-	मफका -
		00049	खैरा भूताई	-	-	-	मफका -
		00052	चन्हिया खुद	-	सोयाबीन	-	मफका -
	छिन्दवाडा-2						
		00001	राहेना कलौ	-	-	-	मफका -
		00002	भैसाहण्ड	-	-	-	मफका -
		00003	धुनिया उदना	-	-	-	मफका -
		00004	गुरैया	-	-	-	मफका -
		00005	पीआमा	-	-	-	मफका -
		00006	गांगीयाडा	-	-	-	मफका -
		00007	मानेगोय	-	सोयाबीन	-	मफका -
		00008	परतला	-	-	-	मफका -
		00009	खजरी	-	सोयाबीन	-	मफका -
		00010	खापाभाट	-	-	-	मफका -
		00011	कुकडा जगत	-	-	-	मफका -
		00012	लोनिया करबल	-	-	-	मफका -
		00013	चन्दनगोय	-	सोयाबीन	-	मफका -
		00014	सर्ग	-	-	-	मफका -
		00015	हमलीखेडा	-	-	-	मफका -
		00016	सारसयाडा	-	-	-	मफका -
		00017	घोरिया	-	-	-	मफका -
	मोहखेड						
	सांयरी						
		00003	भवासी रैयत				
		00007	बीजागोरा				
		00026	देवगढ़				
		00027	लोहांगी रैयत				
	सोसर						
	सोसर						
		00001	डुकरझेला				
		00002	जापा				
		00003	जोबनी				
		00005	रामपेठमाल				
		00006	पिपलाकन्हान				

		00007	खुटाम्बा				
		00009	रोहना				
		00010	रामाकोना				
		00013	देवी				
		00016	कुडम्म				
		00022	धराम				
		00023	मन्वेवानी				
		00025	रजाडीपिपला				
		00026	सावगी				
		00027	छतरापुर				
		00028	पधराखेडी				
		00029	भोहराव				
		00032	सावली				
		00035	बेरडी				
		00048	कोपरावाडीकलौ				
	हरई						
	बटकाखापा						
		00003	ओझलदाना			मफ्या	
		00004	गंगई		सोयाबीन	मफ्या	
		00006	भैसादंड				
		00008	भोईपार				
		00011	बटकाखापा			मफ्या	
		00012	आंचलकुंड		सोयाबीन	मफ्या	
		00013	बांका		सोयाबीन		
		00026	पलानी		सोयाबीन	मफ्या	
		00028	धारवा			मफ्या	
		00029	मडई		सोयाबीन		
		00032	बिछुआ			मफ्या	

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	रा.नि.अ.का नाम	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार								
					पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा	
ब्रह्मपुर	खकनार	खकनार	00001	Sindhkhedakala	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00002	Gulai	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00003	Sitapur	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00004	चाकबारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00005	Haseenbad	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00006	सिरपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00007	Khairkheda	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00008	Nandkheda	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00009	ताजनापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00010	Doifodiya	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00011	Lokhandya	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00012	Nayar	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00013	Nandurakhurd	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00015	Karkheda	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-			
			00016	Dhaba	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-			
			00017	Basalee	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00018	Nagjhiree	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00019	पांगरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00020	Khaknarkhurd	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-			
			00021	जमुनिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00022	Khaknarkala	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00024	सावली	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00025	Mohangadh	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00027	रंगाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00028	खडकी	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00014	साईखेडाकला	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-			
			00026	Shekhapur Raiyat	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			तुकईथड	तुकईथड	तुकईथड	00030	Tembhee	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00032	बिजोरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00033	चिड़ियामाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00034	Tukaithad	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00035	झिरमिटी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00036	रायतलाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00037	मोन्द्रा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00038	पीपलपानी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00039	Dhar Belthad	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00040	Pipree Borvan	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00041	बालापाट	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
						00042	देडतलाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00043	दैर्यत	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00044	Paratha	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00045	गोन्दी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00046	तेलियाथड	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
						00047	डबाली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00048	Sajnee	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00049	दाहिंदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-

		00050	Shekhpura Raiyat		-	सोयाबीन	-	-
		00051	Ramakhedakhurd		-	सोयाबीन	-	-
		00052	रामाखेडाकला		-	सोयाबीन	-	-
	नेपानगर							
	आसेर							
		00001	इटारिया		-	सोयाबीन	-	-
		00002	Suktakhurd		-	सोयाबीन	-	-
		00003	झिरपांजरीय		-	सोयाबीन	-	-
		00004	Dhond		-	सोयाबीन	-	-
		00005	Boreebujurg		-	सोयाबीन	-	-
		00006	Bagvaniya		-	सोयाबीन	-	-
		00007	धुलकोट		-	सोयाबीन	-	-
		00008	Harda		-	सोयाबीन	-	-
		00009	Khatla		-	सोयाबीन	-	-
		00010	जलान्द्रा		-	सोयाबीन	-	-
		00016	टिटगाँवकला		-	सोयाबीन	-	-
	नेपानगर							
		00017	सारोला		-	सोयाबीन	-	-
		00018	Bada Jainabad		-	सोयाबीन	-	-
		00019	Mahalgurada		-	सोयाबीन	-	-
		00020	Sandaskala		-	सोयाबीन	-	-
		00021	हिंमना रेय्यत		-	सोयाबीन	-	-
		00022	Drvrimal		-	सोयाबीन	-	-
		00023	Ambada		-	सोयाबीन	-	-
		00024	डावलीखुर्द		-	सोयाबीन	-	-
		00028	अंधारबाड़ी		-	सोयाबीन	-	-
		00029	Seeval		-	सोयाबीन	-	-
		00030	Saikhedakhurd		-	सोयाबीन	-	-
		00031	Palasur		-	सोयाबीन	-	-
		00032	वड़ीखेडा		-	सोयाबीन	-	-
		00033	दभियाखेडा		-	सोयाबीन	-	-
		00034	Haidarpur		-	सोयाबीन	-	-
		00035	Gagharla		-	सोयाबीन	-	-
		00036	Navra		-	सोयाबीन	-	-
		00037	Sindhkheda		-	सोयाबीन	-	-
		00039	Goradiya		-	सोयाबीन	-	-
		00040	Majhgao		-	सोयाबीन	-	-
		00042	Nayakheda		-	सोयाबीन	-	-
		00043	Kerpanee		-	सोयाबीन	-	-
		00044	Golkheda		-	सोयाबीन	-	-
		00045	Amullakhurd		-	सोयाबीन	-	-
	बरहानपुर							
	बरहानपुर							
		00001	बिरोदा		-	-	-	मक्का
		00002	Lonee		-	सोयाबीन	-	मक्का
		00016	Jainabad		-	सोयाबीन	-	-
		00019	Badgao Mafee		-	सोयाबीन	-	-
		00020	Daryapur Kala		-	सोयाबीन	-	-
		00023	Badjhree		-	सोयाबीन	-	-
	शाहपुर							
		00030	शाहपुर		-	सोयाबीन	-	मक्का
		00040	Ichchapur		-	-	-	मक्का
		00050	Jasondee		-	-	-	मक्का

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
सिंगरौली	चितरंगी	कोरावल	00001	खम्हरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00002	बहेरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00003	खम्हारडीह		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00004	नेवारी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00005	कुलकवार		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00006	रेही		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00007	करोँदिया		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00009	बोछी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00010	नेकहवा		धानअसिंचित	-	तुअर	मक्का	-
			00011	फुटहवा		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00012	गोपला		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00017	तमई		-	-	-	मक्का	-
			00018	पड़ी खुद		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00019	नौडिहवा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00020	खंडार		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00021	बरवाडीह		धानअसिंचित	-	तुअर	मक्का	-
	चितरंगी		00040	मिसिरगावां		-	-	तुअर	मक्का	-
			00041	सुपूर्वा		-	-	तुअर	मक्का	-
			00043	ओइनी		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00045	बगदराकला		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00046	चितरंगी		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00047	सुलखानकला		-	-	-	मक्का	-
			00048	बूढाडोल		-	-	-	मक्का	-
			00049	बोदाखूटा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00050	शेरवा		-	-	-	मक्का	-
			00051	कुडैनिया		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00052	देवगाव		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00053	पोडी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00054	बडकुडू		-	-	तुअर	मक्का	-
			00055	गांगी		-	-	तुअर	-	-
			00057	धरौलीकला		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00058	विजयपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00059	गड्वानी		धानअसिंचित	-	तुअर	मक्का	-
			00060	रजदहा		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00061	पडरी		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00062	बरहट		धानअसिंचित	-	तुअर	मक्का	-
			00064	कोरसर पैपखर		धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
			00067	खुमचा		-	-	तुअर	मक्का	-
			00068	झोछी		धानअसिंचित	-	तुअर	मक्का	-
			00069	खमरियाकला		धानअसिंचित	-	तुअर	मक्का	-
			00070	कर्युआ		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00071	पराई		धानअसिंचित	-	तुअर	मक्का	-
			00072	धवई		धानअसिंचित	-	तुअर	मक्का	-
			00073	बैरदह		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00074	करलो		धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
			00075	गिर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00076	देवरी		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-

		00077	दरवारी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00078	पिडरिया		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
	दुधमनिया								
		00083	भौंडार		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00084	पतेरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00086	धरसडा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00087	खरकटा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00088	सेमुआर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00089	कसर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00093	करेला		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00094	बरवानी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00095	बिरकनिया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00096	पिपरा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00097	पोडी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00098	दुधमनिया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00101	खोखवा		-	-	-	मक्का	-
		00102	बगैया		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00103	कपूरदेई		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00104	कनरिहार		-	-	तुअर	मक्का	-
		00105	सिंधार		-	-	-	मक्का	-
		00106	बैरिहवा		-	-	-	मक्का	-
		00108	चकरिया		-	-	-	मक्का	-
		00110	खिरवा	धानसिचित	-	-	तुअर	मक्का	-
		00111	घतरी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00112	चूरकी	धानसिचित	-	-	-	मक्का	-
	मौहरिया								
		00022	लमसरई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	डिघवार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	मौहरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	घोघरा		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
देवसर									
	देवसरगिर्द								
		00016	इटार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	धनहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	सहआर		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00020	मजौना		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00021	हरा चन्देल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	जोगिनी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00023	पुरवा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00024	खडीरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	झखरावल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	बम्हनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	बूढाडाड		धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	देवगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	उमरहर		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00030	आमो		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	बोडी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00033	मझिगवां		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	बरगवां								
		00034	जुडवार		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00037	बडोखर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	ओडुगडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	बाघाडीह		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00041	देवरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	तिनगडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	उज्जैनी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00044	मझौली		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00045	जोवगढ़		धानअसिचित	-	तुअर	-	-

		00045	जोगगढ़		धानअसिचित	-	तुअर		
		00050	भनुगढ़		धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	गोदवाली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	दादर		धानअसिचित	-	-	-	-
	सरोधा								
		00003	बंघा		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00004	परसोहर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	मझिगवां		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00006	डोड़की		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00007	सरोधा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00011	कारी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00012	अतरवा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00013	ढोगा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	कुर्सा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00015	जियावन		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
	माडा								
	अमिलिया								
		00001	अमिलिया		-	-	-	मक्का	-
		00007	मलगा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00008	बैतरिया	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00009	कोटिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	कसुआराजा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	रेला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00012	चौरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	सखौहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	सियाही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	अमिलवान		धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	रजमिलान	धानसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00019	भुडकुड़		धानअसिचित	-	-	-	-
	माडा								
		00021	बहेरीकला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00022	असनौ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	रोंदी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	पडरी राजटोला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	पौडीपाठ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	रोहाल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	बुचरो		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00028	भदेली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	धनगढ़		धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	बिन्दुल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	जीर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	धरी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00033	माडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	छतौली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	धनहरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	ओखरावल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	खम्हरिया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00040	मलगा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00048	जोगियानी	धानसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00049	बड़गड़	धानसिचित	-	-	-	-	-
	सरई								
	खनुआनया								
		00044	ओवरी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00046	पचौर		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00047	बकहल		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00048	गजरा बहरा		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00049	गोरा		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00050	खनुआनया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-

		00051	जमगढी		धानअसिचित		तुअर	मक्का	
		00052	बंधा		धानअसिचित				
		00053	तेन्दुहा					मक्का	
		00054	भलयाटोला		धानअसिचित				
		00057	बजौडी		धानअसिचित			मक्का	
		00058	ताल		धानअसिचित			मक्का	
		00059	भैसाबूडा		धानअसिचित			मक्का	
		00060	लघाडोल		धानअसिचित				
		00061	डोंगरी		धानअसिचित			मक्का	
		00062	मझौलीपाठ		धानअसिचित			मक्का	
	निवास								
		00001	जावो		धानअसिचित			मक्का	
		00002	करदा					मक्का	
		00005	कछरा	धानसिचित	धानअसिचित				
		00006	कुचवाही		धानअसिचित				
		00007	छमरक्ष		धानअसिचित				
		00008	पापल		धानअसिचित				
		00009	निगरी		धानअसिचित				
		00010	कटई		धानअसिचित				
		00011	निवास		धानअसिचित				
		00012	हदी		धानअसिचित				
		00013	महुआगाव		धानअसिचित				
		00014	पोडी		धानअसिचित				
		00015	भरसेडी		धानअसिचित				
		00016	बंजारी		धानअसिचित				
		00017	गडई गावं	धानसिचित	धानअसिचित		तुअर	मक्का	
		00018	भरसेडा		धानअसिचित				
		00019	गौडा		धानअसिचित				
		00020	धौहनी		धानअसिचित				
		00021	महली		धानअसिचित			मक्का	
	सरई								
		00022	पिपरी					मक्का	
		00024	पिड्डा		धानअसिचित			मक्का	
		00025	कठदहा		धानअसिचित				
		00026	पुरेल		धानअसिचित				
		00027	गन्नई		धानअसिचित		तुअर	मक्का	
		00029	बरका		धानअसिचित				
		00030	महरैल		धानअसिचित			मक्का	
		00031	गोडबहरा		धानअसिचित				
		00032	साजापानी		धानअसिचित		तुअर		
		00033	झारा		धानअसिचित		तुअर	मक्का	
		00034	बेलगांव		धानअसिचित				
		00035	दुधमनिया		धानअसिचित		तुअर	मक्का	
		00036	समूद		धानअसिचित				
		00037	इटमा		धानअसिचित				
		00038	कोनी		धानअसिचित				
		00040	धोधरा		धानअसिचित				
		00041	सरई		धानअसिचित			मक्का	
		00042	पोखरीटोला		धानअसिचित				
		00043	दियागडई		धानअसिचित				
सिंगरोली									
	खटार								
		00001	गडेरिया		धानअसिचित				
		00004	डिग्गी		धानअसिचित		तुअर	मक्का	
		00005	पिपराझापी	धानसिचित	धानअसिचित				
		00006	पोडीनीगई	धानसिचित	धानअसिचित				
		00007	गडहरा		धानअसिचित				
		00008	देवरी		धानअसिचित				

		00009	खटखरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	बिहरा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00012	चितरबईकला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00013	गलिहरा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00017	जरहा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	कटौली	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00019	खुटार	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	ढेकी		धानअसिचित	-	-	-	-
	बैठन								
		00024	नोंगढ़		धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	धौरौलीकला		-	-	तुअर	मक्का	-
		00028	मेढौली		-	-	-	मक्का	-
		00029	पंजरह		धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	कचनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	माजनकला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	चन्द्रावल		धानअसिचित	-	-	-	-
	शासन								
		00043	हिरवाह		धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	काम		धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	मझौली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	चांचर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	तियरा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00049	पिपरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	सिद्धिकला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00051	सिद्धिखुर्द		धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	हड़हवा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00054	करोटी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00055	पिपराकुन्द		धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	उती		-	-	तुअर	-	-
		00057	बहरपान		-	-	तुअर	मक्का	-
		00058	चरगोडा		-	-	तुअर	-	-
		00059	गोभा		-	-	तुअर	मक्का	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2016-2017	ना उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
भिण्ड										
मूल अधिसूचना क्रमांक 189, दिनांक 23.4.2016 में निम्नलिखित हल्कों के समक्ष अंकित फसलों को जोड़ा जाता है										
	अटेर	अटेर	3	उदोतगढ़						बाजरा
			5	खडीत						बाजरा
			8	अहिरौली घाट						बाजरा
			25	जम्होरा						बाजरा
			26	रिदौली						बाजरा
		सुरपुरा	30	किशुपुरा						बाजरा
			31	आकोन						बाजरा
			32	नखलीली						बाजरा
			33	चुरपुरा						बाजरा
			35	सोई						बाजरा
			36	जनीरा						बाजरा
			37	कमई						बाजरा
			40	मनेपुरा						बाजरा
			48	सकराया						बाजरा
	गोरमी	गोरमी	1	सुकाण्ड						बाजरा
			2	आरीली						बाजरा
			5	कचनावखुर्द						बाजरा
			17	सिकरौदा						बाजरा
			21	गोरमी						बाजरा
			22	खोकीपुरा						बाजरा
			35	हरीक्षा						बाजरा
			25	गुरीखा	धान					
	भिण्ड	पीपरी	4	गोअर खुर्द						बाजरा
			5	गोअरकला						बाजरा
			6	पीपरी						बाजरा
			7	बिछोली						बाजरा
			8	रैपुरा						बाजरा
			9	पिथनपुरा						बाजरा
			13	बगुलरी						बाजरा
			16	दैहरा						बाजरा
			20	मुड़ियाखेड़ा						बाजरा
			24	भृगपुरा						बाजरा
			25	जौरी ब्राहमण						बाजरा
			26	रैतहार						बाजरा
			27	महापुर						बाजरा
			28	पिडौरा						बाजरा
			31	लावन						बाजरा
			32	बरोही						बाजरा
			33	नाथब						बाजरा
		फूफ	58	सियोडा						बाजरा
			60	भगवासी						बाजरा
			64	फूफ खुर्द						बाजरा

			65	बरही					बाजरा
			66	सपाड					बाजरा
			67	समन्ना					बाजरा
			69	सराया					बाजरा
			70	भौनपुरा					बाजरा
			71	सांकरी					बाजरा
			72	विण्डवा					बाजरा
			73	मीसा					बाजरा
			74	कनावर					बाजरा
		ऊमरी	81	लहरौली					बाजरा
			83	मोतीपुरा					बाजरा
			84	पुलावली					बाजरा
			86	गुसींग					बाजरा
			87	कोट					बाजरा
			89	रमपुरा					बाजरा
			94	अतरसूमा					बाजरा
			99	डूंगरपुरा					बाजरा
			101	द्वार					बाजरा
		भिण्ड	41	बाराखुर्द					बाजरा
			44	बाराकला					बाजरा
			47	जामना					बाजरा
			51	जामपुरा					बाजरा
			55	बिल्हौरा					बाजरा
मिहोना	मिहोना		5	अचलपुरा					बाजरा
			8	रहावली उवारी					बाजरा
			9	सिकारी जागीर					बाजरा
			16	मछण्ड					बाजरा
			20	सुरघान					बाजरा
रौन	रौन		1	पडौरा					बाजरा
लहार	लहार		1	मडौरा					बाजरा
			5	गिरवासा					बाजरा
			9	भटपुरा					बाजरा
			10	बैसपुरा					बाजरा
			15	छिदी					बाजरा
			16	सुन्दरपुरा					बाजरा
			18	लहार					बाजरा
			19	लहार					बाजरा
			21	पृथ्वीपुरा					बाजरा
			22	चिरोली					बाजरा
			23	मसैरन					बाजरा
			24	महुआ					बाजरा
		असवार	30	अखदेवा					बाजरा
			31	बरेई					बाजरा
			36	परैक्षा					बाजरा
			37	धर्मपुरा					बाजरा
			38	छेवरीकला					बाजरा
मेहगांव	अमायन		39	ब्रासी					बाजरा
			43	गोहरा					बाजरा
			44	भारौली खुर्द					बाजरा
			45	भारौली कला					बाजरा
			54	गहेली					बाजरा
			63	अमायन					बाजरा

	गोहद	एण्डोरी	19	कंचनपुर	धान					
			10	एण्डोरी	धान					
			21	छरैटा	धान					
			1	सुहांस						बाजरा
			2	ऐनो						बाजरा
			11	पडुराई						बाजरा
			12	भौनपुरा						बाजरा
			13	बरोना						बाजरा
			14	बकनासा						बाजरा
		गोहद	31	ऐंचाया						बाजरा
			32	कठवाहाजी						बाजरा
			33	बरथरा						बाजरा
			41	भगवासा						बाजरा
			42	धरसा						बाजरा
	लहार	दबोह	55	बीसनपुरा						बाजरा
	मौ	मौ	89	मधन						बाजरा

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
				पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा	
जिला	तहसील		पटवारी हल्का न.								
मिण्ड											
मूल अधिसूचना क्रमांक 189, दिनांक 23.4.2016 में निम्नलिखित हल्कों के समक्ष अंकित फसलों को विलोपित किया जाता है											
	अटेर	अटेर	15	नवलीवृन्दावन							बाजरा
			17	घिनोची							बाजरा
			21	खिपौना							बाजरा
			23	प्रतापपुरा							बाजरा
	मिण्ड	ऊमरी	79	खैराश्यामपुरा							बाजरा
			80	ढोंचरा							बाजरा
			95	ककहरा							बाजरा
	मिहोना	मिहोना	1	मटयावली बुजुर्ग							बाजरा
			2	चचीपुरा							बाजरा
			15	जैतपुरा							बाजरा
			26	बड़ोखरी							बाजरा
	रौन	रौन	8	मनगढ़							बाजरा
			9	गौरई							बाजरा
	लहार	लहार	4	लिलवारी							बाजरा
			13	हीरापुरा							बाजरा
		असवार	33	टोला							बाजरा
			42	अरुसी							बाजरा
	गोहद	एण्डोरी	4	रायकीपाली	धान						
			13	बरौना	धान						

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
रतलाम	आलोट	आलोट								
			00001	बरखेडाकला	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00002	कराडिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00003	बामनखेडी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00004	देवगढ	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00005	हिम्मतखेडी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00006	मोरिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00007	रजला	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00008	मजनपुर	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00009	कानडिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00010	थूरिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00011	वडियाराठोर	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00012	शीशाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00013	खजूरीदेवडा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00014	पिपलिया पीथा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00015	पिपलियासिसोदिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00016	पिपलिया मार	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00017	मल्हारगढ	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00018	मूज	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00019	आलोट	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00020	माउ खेडी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00021	गुलवालोद	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00022	दुधिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00023	वगुनिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00024	भूतिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00025	कछालिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00026	शेरपुरखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00027	हिगडी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00028	अरवलिया सोलकी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00029	रीछा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00030	कथारिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00031	जहानावाद	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00032	खामरिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00033	धरोला	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00034	खजूरी सोलकी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00035	बोरखेडी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00036	भोजाग्रेडी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00037	कलस्या	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00038	गोयल	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00039	गुराडिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00040	जोयन	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00041	पाटन	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00042	निपानिया राजगुर	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00043	डावडिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00044	तालोद	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00045	रावतखेडा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00046	भीम	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

जावरा	जावरा								
		00035	मीडली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	हाट पीपलीया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	अरजला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	वटवडीया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	नीवोदीया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	लोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	गूजर वाउया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	खजूरीया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	वउया गोयल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	पीर हीगोरीया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	सीदूकीया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	खेजनखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	उमाखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	वउवदी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	गउगउया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	हीगोरीया दादू	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	बहादूर जागीर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	नयानगर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	अक्यावेली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	जावरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	बोरदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	लुहारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	भूतेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	लालाखेउ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	रोजा खेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	उपलाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	नीमन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	सादा खेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	पाता खेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	सरसी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	केरवासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	रेवास	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	डोउयाना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	ललीयाना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	वउवदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	लसूडिया जगली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	दोढर								
		00001	पीपलीया जोधा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	दोढर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	मोयाखेउ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	हनुमतीया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	मोरीया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	मातरउगज	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	धतरावदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	पीपलीया सीर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	शककर खेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	मरमया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	असावती	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	माडवी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	गोदी शकर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	धर्मसी गोदी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	नेतावली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	रोला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	रीगनोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-

		00018	कलालीया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	परवलीया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	रीछा चादा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	मडलाराम		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	भेसाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	भीमाखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	रोजाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	झालवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	वनवाउ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	वीनोली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	खेउ खेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	मीनाखेउ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	आलमपुर ठीकरीया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	कामलीया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	वडवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	गोठउ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	उनी		-	सोयाबीन	-	-	-
	ताल								
		ताल							
		00001	केलूखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	सुरजना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	पीपलखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	वरखेडा खुद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	असावता		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	कोडडी ताल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	माधोपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	ऐरवास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	मल्या ताल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	अक्या कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	जमुनीया शंकर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	रणयरा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	सेमलीया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	नेगरन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	कीशनगढ ताल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	थम गुराडीया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	करवाखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	भेसाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	लसुडीया खेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	मनुनीया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	वीसलखुडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	मुडला कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	मरमीया खेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	कीटखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	डेलवास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	नीपानीया लीला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	लुनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	वरसी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	गुरूखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	सागाखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	खारवा खुद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	पथ पीपलोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	चापलाखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	खेता खेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	पीपलीया नुखार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	खारवाकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	दोलतगज		-	सोयाबीन	-	-	-

		00038	कोठडी खारवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	कसारी चोहान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	भेसोला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	मीनावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	कोलुखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	लसुडीया सुरजमल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	ताजखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	ताल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	मडावल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	पिपलोदा							
	कालुखेडा							
		00001	मावता	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00002	रानीगाव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00003	नवेली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00004	बछोडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	धतुरीया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00006	रीयावन	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00007	भाकरखेडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00008	कसेर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	चिकलाना(कालुखेडा)	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00010	कालुखेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00011	भाटखेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00012	रणायरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	रीछादेवडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00014	पीगराला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	जडवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	माननखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	वरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	चीकलाना	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00019	मामंटखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	आकयादेह	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	तालीदाना	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	पिपलोदा							
		00022	पचेवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	जेठाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	नोलखा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	माउखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	कावलखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	धमेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	सुखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	नीपानीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	पीपलोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	कमलाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	गुडरखेड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	उम्मेदपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	शेरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	आम्बा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	मचून	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	हतनारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	कुशलगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	नादलेटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	वउयलामाता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	राकोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	बोरखेड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	अयाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	उपरवाउ	-	सोयाबीन	-	-	-

		00046	हरीयाखेड			सोयाबीन	-	-	-
		00045	सूजापुर			सोयाबीन	-	-	-
		00047	बारा खेड			सोयाबीन	-	-	-
		00048	सोहनगढ			सोयाबीन	-	-	-
		00049	वरगढ			सोयाबीन	-	-	-
		00050	आकतवासा			सोयाबीन	-	-	-
		00051	कचनखेडी			सोयाबीन	-	-	-
		00052	हसनपालीया			सोयाबीन	-	-	-
		00053	वउयला चोरासी			सोयाबीन	-	-	-
	बाजना								
	बाजना								
		00001	झोलीचन्द्रगढ			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00002	रायपाडा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00003	इरनीया			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00004	केलकच्छ			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	मानपुरा(बाजना)			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00006	चन्दला			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00007	वीनटी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00008	चिकनी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	राजापुरा				-	मक्का	-
		00010	छावनीझोडिया			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00011	रतनगढ पीठ			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00012	खेरदा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	पिपलीपाडा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00014	हेवडा दमा कला			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00015	भडानकला			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00016	झरन्या उकाला			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00017	करवल खोरा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00018	गढी कटारा कला			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00019	कुंदनपुर			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00020	संगेसरा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00021	भूतपाडा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00022	कुडल			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00023	गढीगमना			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00024	भोजपुरा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00025	ठीकरीया			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00026	बाजना			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00027	इमलीपाडा कला			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00028	छावनी भामर			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00029	अम्वापाडा कला			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00030	भूरी घाटी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00031	जम्बूखादन			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00032	देवली			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00033	घोडाखेडा			सोयाबीन	-	मक्का	-
	रतलाम								
	नामली								
		00001	बोदिना			सोयाबीन	-	-	-
		00002	खोखरा			सोयाबीन	-	-	-
		00003	दीवेल			सोयाबीन	-	-	-
		00004	धमनोद			सोयाबीन	-	-	-
		00005	पचेउ			सोयाबीन	-	-	-
		00006	भरोडा			सोयाबीन	-	-	-
		00007	नौगावाकला			सोयाबीन	-	-	-
		00008	पन्दूना			सोयाबीन	-	-	-
		00009	काडरवासा			सोयाबीन	-	-	-
		00010	बडोदा			सोयाबीन	-	-	-

		00011	मेवासा			सोयाबीन	-	-	-
		00012	नामली			सोयाबीन	-	-	-
		00013	सेमलीया			सोयाबीन	-	-	-
		00014	भदवासा			सोयाबीन	-	-	-
		00015	सीखेडी			सोयाबीन	-	-	-
		00016	गुणावद			सोयाबीन	-	-	-
		00017	रघुनाथगढ			सोयाबीन	-	-	-
		00018	वरबोदना			सोयाबीन	-	-	-
		00019	नेगडदा			सोयाबीन	-	-	-
		00020	धमोततर			सोयाबीन	-	-	-
		00021	मोरदा			सोयाबीन	-	-	-
		00022	बाँगरोद			सोयाबीन	-	-	-
		00023	धोसवास			सोयाबीन	-	-	-
		00024	बाजेडा			सोयाबीन	-	-	-
		00025	उसरगार			सोयाबीन	-	-	-
	बिलपांक								
		00059	सेवरिया			सोयाबीन	-	-	-
		00060	लुनेरा			सोयाबीन	-	-	-
		00061	बम्बोरी			सोयाबीन	-	-	-
		00062	धानासुता			सोयाबीन	-	-	-
		00063	कमेड			सोयाबीन	-	-	-
		00064	लपटिया			सोयाबीन	-	-	-
		00065	सीनोद			सोयाबीन	-	-	-
		00066	ठीकवा			सोयाबीन	-	-	-
		00067	कोठडी			सोयाबीन	-	-	-
		00068	चोराना			सोयाबीन	-	-	-
		00069	नौगांवा जागीर			सोयाबीन	-	-	-
		00070	धराड.			सोयाबीन	-	-	-
		00071	बीलपांक			सोयाबीन	-	-	-
		00072	वदनारा			सोयाबीन	-	-	-
		00073	दतोडीया			सोयाबीन	-	-	-
		00074	मऊ			सोयाबीन	-	-	-
		00075	अम्बोदीया			सोयाबीन	-	-	-
		00076	जमूनीया			सोयाबीन	-	-	-
		00077	नलकई			सोयाबीन	-	-	-
		00078	सरवड			सोयाबीन	-	-	-
		00079	प्रीतमनगर			सोयाबीन	-	-	-
		00080	झरखेडी			सोयाबीन	-	-	-
		00081	रतागढ ख			सोयाबीन	-	-	-
		00082	सीमलावदा			सोयाबीन	-	-	-
		00083	सुजलाना			सोयाबीन	-	-	-
	मुंदडी								
		00084	कनेरी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00085	मोरवनी			सोयाबीन	-	-	-
		00086	कलमोडा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00088	पलास			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00089	मुंदडी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00090	आलनीया			सोयाबीन	-	-	-
		00091	कुआ झागर			सोयाबीन	-	-	-
		00092	तीतरी			सोयाबीन	-	-	-
		00093	मागरोल			सोयाबीन	-	-	-
		00094	भाटीवडोदीया			सोयाबीन	-	-	-
		00095	सरवनी जागीर			सोयाबीन	-	-	-
		00096	उमरन			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00097	चिपलखुटा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00098	पीपलोदी			सोयाबीन	-	मक्का	-

		00099	उमरथाना	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00100	धोलका	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00101	बिरमावल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	रतलाम या							
		00030	अमलेटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	पलसोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	जामथुन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	डेलनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	ईसरथनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	गोपालपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	रामपुरया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	पलसोडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	बजली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	जुलवानिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	सेजावता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	घटला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	वीवडोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	सागोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	हरथली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	राजपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	सालाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	ईटावाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	सनावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	नगरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	जडवासा खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	जडवासा कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	सीमलावदा खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	मलवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	हतनारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	नायन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	ईटावाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	शिवपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	वडोदीया	-	सोयाबीन	-	-	-
	रतलाम शहर							
		00027	वीरीयाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	रतलाम	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	करमदि	-	सोयाबीन	-	-	-
राव								
	रावटी							
		00001	कुडीया पाडा	-	-	-	मक्का	-
		00003	बजरंगगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	नाहरपुरा	-	-	-	मक्का	-
		00006	सेलज देवदा	-	-	-	मक्का	-
		00008	अमरपुराकला	-	-	-	मक्का	-
		00010	नायन	-	-	-	मक्का	-
		00011	सादेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	मरगुल	-	-	-	मक्का	-
		00014	मोलावा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	देथला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	भगगा सेलोद का टापरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	ऊमर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	बीड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	रावटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	आतलीपाडा	-	-	-	मक्का	-
		00021	बिलडी	-	-	-	मक्का	-

		00023	हरथल						मक्का	-
		00024	देवला						मक्का	-
		00025	सीगत						मक्का	-
		00029	तम्बोलीया				सोयाबीन		-	-
		00030	गडावदिया				सोयाबीन		-	-
		00031	डावडी				सोयाबीन		-	-
		00032	रानीसिंग				सोयाबीन		-	-
	सैलाना									
		शिवगढ								
		00034	बरडा				सोयाबीन		मक्का	-
		00035	इगरपुरा				सोयाबीन		मक्का	-
		00036	केलदा				सोयाबीन		मक्का	-
		00037	दोलतपुरा				सोयाबीन		मक्का	-
		00038	सुडी				सोयाबीन		मक्का	-
		00039	भामट				सोयाबीन		मक्का	-
		00040	ठीकरिया				सोयाबीन		मक्का	-
		00041	कांगसी				सोयाबीन		मक्का	-
		00042	बावडी				सोयाबीन		मक्का	-
		00043	शिवगढ				सोयाबीन		-	-
		00044	कुआ झागर				सोयाबीन		मक्का	-
		00045	तालाबबोडी				सोयाबीन		मक्का	-
		00046	वायडी				सोयाबीन		मक्का	-
		00047	वासिन्द्रा				सोयाबीन		-	-
		00048	खेडी कला				सोयाबीन		-	-
	सैलाना									
		00001	अमरगढ				सोयाबीन		मक्का	-
		00002	उन्डेल				-		मक्का	-
		00003	महापुरा				-		मक्का	-
		00004	सालवानीया				सोयाबीन		मक्का	-
		00005	सालरापाडा				सोयाबीन		मक्का	-
		00006	कुण्डा				सोयाबीन		मक्का	-
		00007	गराड				सोयाबीन		मक्का	-
		00008	बोरदा				सोयाबीन		मक्का	-
		00009	गुडभेली				सोयाबीन		मक्का	-
		00010	सेरा				सोयाबीन		मक्का	-
		00011	वेडदा				सोयाबीन		मक्का	-
		00012	चन्देरा				सोयाबीन		मक्का	-
		00013	पाटडी				सोयाबीन		मक्का	-
		00014	अम्बापाडा				सोयाबीन		-	-
		00015	वल्लीखेडा				सोयाबीन		मक्का	-
		00016	लुणी				सोयाबीन		मक्का	-
		00017	इन्द्रावल खर्द				सोयाबीन		मक्का	-
		00018	कोलपुरा				सोयाबीन		मक्का	-
		00020	पूनयाखेडी				सोयाबीन		मक्का	-
		00021	बडी खर्द				सोयाबीन		-	-
		00022	चावडाखेडी भिलान				सोयाबीन		मक्का	-
		00024	करिया				सोयाबीन		-	-
		00025	कोटडा				सोयाबीन		-	-
		00026	सैलाना				सोयाबीन		मक्का	-
		00027	भीलो की खेडी				सोयाबीन		-	-
		00028	अडवानीया				सोयाबीन		-	-
		00029	सेमलखेडा				सोयाबीन		-	-
		00030	सकरावदा				सोयाबीन		मक्का	-
		00031	बोरखेडा				सोयाबीन		मक्का	-
		00032	सांसर				सोयाबीन		मक्का	-
		00033	नयापाडा				सोयाबीन		मक्का	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कृषि मंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुड्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
सीहोर										
मूल अधिसूचना क्रमांक 189, दिनांक 23.4.2016 में निम्नलिखित हल्कों के समक्ष अंकित फसलों को जोड़ा जाता है										
	बुधनी	बुधनी	1	खाडावड	धान सिंचित					
			2	देवागांव	धान सिंचित					
			3	होलीपुरा	धान सिंचित					
			4	महुकला	धान सिंचित					
			5	पीलीकरार	धान सिंचित					
			6	बुधनी	धान सिंचित					
			7	जोशीपुर	धान सिंचित					
			9	खटसूरा	धान सिंचित					
			10	पहाड़खेड़ी	धान सिंचित					
			23	नारायणपुर	धान सिंचित					
			29	चीकली	धान सिंचित					
			36	नादनेर	धान सिंचित					
	रेहटी	सलकनपुर	11	सलकनपुर	धान सिंचित					
			13	मुराहि	धान सिंचित					
			14	पथौड़ा	धान सिंचित					
			15	अवलीघाट	धान सिंचित					
			16	मोगर	धान सिंचित					
			17	भर्दानपुर	धान सिंचित					
			23	जहाजपुरा	धान सिंचित					
			24	नीनोर	धान सिंचित					
			25	माथनी	धान सिंचित					
			26	पानगुराड़िया	धान सिंचित					
			27	वायां	धान सिंचित					
	इछावर	इछावर	60	लावाखाड़ी			सोयाबीन			
			62	सारस			सोयाबीन			

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
धार	कक्षी	कक्षी								
			00049	उण्डली	-	-	-	-	मक्का	-
			00050	उमरी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00051	डोई	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00052	लोगसरी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00054	कुतेडी	-	-	-	-	मक्का	-
			00056	बाकी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00057	खरगोन	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00058	टेकी	-	-	-	-	मक्का	-
			00059	नीमथल	-	-	-	-	मक्का	-
			00060	झंडा	-	-	-	-	मक्का	-
			00061	बडग्यार	-	-	-	-	मक्का	-
			00062	लोहारा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00063	आसपुर	-	-	-	-	मक्का	-
			00064	नैनगाव	-	-	-	-	मक्का	-
			00065	कुण्डारा	-	-	-	-	मक्का	-
			00067	रामपुरा	-	-	-	-	मक्का	-
			00068	खणलाई	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00069	जोगडदी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00071	तलावडी	-	-	-	-	मक्का	-
			00072	खेडली	-	-	-	-	मक्का	-
			00073	मोगरा	-	-	-	-	मक्का	-
			00074	आवली	-	-	-	-	मक्का	-
			00075	कुडदीगपुरा	-	-	-	-	मक्का	-
			00076	कवडियाखेडा	-	-	-	-	मक्का	-
			00077	कापसी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00078	कक्षी	-	-	-	-	मक्का	-
			00079	आली	-	-	-	-	मक्का	-
			00080	तालनपुर	-	-	-	-	मक्का	-
			00081	गिरवान्या	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00082	राजा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00083	हल्दी	-	-	-	-	मक्का	-
			00084	भीमपुरा	-	-	-	-	मक्का	-
			00085	दोल्या	-	-	-	-	मक्का	-
			00086	चिकली	-	-	-	-	मक्का	-
		निसरपुर								
			00119	चिखल्दा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00120	नर्मदा नगर	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00087	सुसारी	-	-	-	-	मक्का	-
			00089	लोणी	-	-	-	-	मक्का	-
			00095	बडगांव	-	-	-	-	मक्का	-
			00096	लोहारी	-	-	-	-	मक्का	-
			00101	बेडवाल्या	-	-	-	-	मक्का	-
			00106	रसवा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00107	भवरिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00110	कोणदा	-	-	-	-	मक्का	-
		बाग								
			00001	काकड कुवा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

		00002	तरसीगा			सोयाबीन	-	-	-
		00004	नरवाली			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	जाली			सोयाबीन	-	-	-
		00006	अम्बासोटी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00008	बडदा टाण्डा			सोयाबीन	-	-	-
		00009	मगदी			-	-	मक्का	-
		00010	डोबनी			सोयाबीन	-	-	-
		00014	बडकच्छ			सोयाबीन	-	-	-
		00015	घोर			सोयाबीन	-	-	-
		00016	काकडवा			-	-	मक्का	-
		00017	झाई			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00018	चामझर			-	-	मक्का	-
		00019	काटी			-	-	मक्का	-
		00020	चिचबा			-	-	मक्का	-
		00021	थाना			-	-	मक्का	-
		00022	बाणदा			-	-	मक्का	-
		00023	घटबोरी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00024	घोटियादेव			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00025	झिरपन्या			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00026	अखाडा			-	-	मक्का	-
		00027	पिपरीयापानी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00028	चिकापोटी			-	-	मक्का	-
		00029	टकारी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00030	करकदा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00031	झाबा			-	-	मक्का	-
		00032	जामन्यापुरा			-	-	मक्का	-
		00033	पाडल्या			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00034	बाग			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00035	महाकालपुरा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00036	आगर			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00037	निगखेडा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00038	कुडु जेता			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00039	नायवेल			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00040	बाकी बाग			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00041	बंधानिया			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00042	पिपरी बाग			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00043	बरखेडा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00044	कन्हेरी सुजानपुर			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00045	मेरती			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00046	भमोरी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00047	देवघा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00048	जामला बाग			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00012	जेतगढ			सोयाबीन	-	-	-
	गंधवानी								
		गंधवानी							
		00001	होलीबयडा			सोयाबीन	-	-	-
		00002	केलीकला			सोयाबीन	-	-	-
		00003	पंथा			सोयाबीन	-	-	-
		00004	बलेडी			सोयाबीन	-	-	-
		00005	पांचपिपल्या			सोयाबीन	-	-	-
		00006	बावडीखेदरा			सोयाबीन	-	-	-
		00007	गुंगीदेवी			सोयाबीन	-	-	-
		00008	जलोख्या			सोयाबीन	-	-	-
		00009	रतनपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00010	पिपल्या			सोयाबीन	-	-	-
		00011	केशवी			सोयाबीन	-	-	-
		00012	देदली			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	खेडीबलवारी			सोयाबीन	-	मक्का	-

		00014	रोडदा			सोयाबीन	-	-	-
		00015	लेडगांव			सोयाबीन	-	-	-
		00016	सिरौज			सोयाबीन	-	-	-
		00017	धौला हनुमान			सोयाबीन	-	-	-
		00018	खरबडी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00019	जामली			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00020	पिथनपुर			सोयाबीन	-	-	-
		00021	चुनप्या			सोयाबीन	-	-	-
		00022	खेडली हनुमान			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00023	धयडी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00024	पुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00025	कोटा			सोयाबीन	-	-	-
		00026	धावडदा			सोयाबीन	-	-	-
		00027	बिल्दा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00028	बिल्दरी			सोयाबीन	-	-	-
		00029	श्यादी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00030	बलवारी कला			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00031	बलवारी खुर्द			सोयाबीन	-	-	-
		00032	रायपुरिया			सोयाबीन	-	-	-
		00033	बेहडदा			सोयाबीन	-	-	-
		00034	धनौरा			सोयाबीन	-	-	-
		00035	बैकल्या			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00036	घुडसल			सोयाबीन	-	-	-
		00037	जीराबाद			सोयाबीन	-	-	-
		00038	करौंदिया			सोयाबीन	-	-	-
		00039	सोयला			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00040	चिकली			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00041	खोड			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00042	मोहनपुरा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00043	बख्तला			-	-	मक्का	-
		00044	रेहडदा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00045	खौजाकआ			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00046	मोरीपुरा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00047	मल्हारा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00048	सातउमरी			सोयाबीन	-	-	-
		00049	साली			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00050	बडिया			सोयाबीन	-	-	-
		00051	खेडीबुजुर्ग			सोयाबीन	-	-	-
		00052	गंधवानी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00053	कोसदना			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00054	अजन्ताड			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00055	झेगदा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00056	सोनगांव			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00057	पिपली			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00058	सेन्दला			सोयाबीन	-	-	-
		00059	काबरवा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00060	देदली बी			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00062	पानवा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00063	बारिया			सोयाबीन	-	-	-
		00064	जहेडि			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00065	खडकी			सोयाबीन	-	-	-
		00066	अवन्त्दामान			सोयाबीन	-	मक्का	-
	उही								
		उही							
		00002	अंराड़ा			-	-	मक्का	-
		00003	उमराली			-	-	मक्का	-
		00004	कलमी			-	-	मक्का	-
		00009	फिफेडा			-	-	मक्का	-

		00010	रणगांव	-	-	-	मक्का	-
		00016	गाजगोटा	-	-	-	मक्का	-
		00017	नरझली	-	-	-	मक्का	-
		00018	बाबली खुर्द	-	-	-	मक्का	-
		00019	बडदा	-	-	-	मक्का	-
		00021	अमलाल	-	-	-	मक्का	-
		00022	पडियाल	-	-	-	मक्का	-
		00024	रेबडदा	-	-	-	मक्का	-
		00032	गंगापुर	-	-	-	मक्का	-
		00033	कवडा	-	-	-	मक्का	-
		00038	डही	-	-	-	मक्का	-
		00040	सिदडी	-	-	-	मक्का	-
		00044	देवधा	-	-	-	मक्का	-
		00011	खटामी	-	-	सोयाबीन	-	-
		00013	पन्हाल	-	-	सोयाबीन	-	-
		00025	बडवान्या	-	-	-	मक्का	-
		00026	शान्दला	-	-	-	मक्का	-
		00030	टेमरीया	-	-	-	मक्का	-
धर्मपुरी								
	धरमपुरी							
		00003	तारापुर	-	-	सोयाबीन	-	मक्का
		00005	उमरिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का
		00006	बगवान्या	-	-	सोयाबीन	-	मक्का
		00009	फरसपुरा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का
		00012	काठिदा	-	-	-	मक्का	-
		00014	सिरसोदिया	-	-	-	मक्का	-
		00015	चिक्टयाबड	-	-	-	मक्का	-
		00019	दुधी	-	-	सोयाबीन	-	-
		00020	कण्ठा	-	-	सोयाबीन	-	-
		00021	जेतापुर	-	-	सोयाबीन	-	-
		00022	बलवारी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का
		00023	डहिवर	-	-	सोयाबीन	-	-
		00024	पलासिया	-	-	सोयाबीन	-	-
		00025	धामनोद	-	-	सोयाबीन	-	-
		00026	बिखरोन	-	-	सोयाबीन	-	-
		00027	पढरान्या	-	-	सोयाबीन	-	-
		00030	डौंगरगांव	-	-	सोयाबीन	-	-
		00031	पटलावद	-	-	सोयाबीन	-	-
		00032	झाकरूड	-	-	सोयाबीन	-	-
		00036	धैगदा	-	-	सोयाबीन	-	-
		00037	पेडती	-	-	सोयाबीन	-	-
		00040	डौंगरी दसोडा	-	-	-	मक्का	-
		00041	पगारा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का
		00042	एकलारा बुजुर्ग	-	-	सोयाबीन	-	मक्का
		00047	सुन्देल	-	-	सोयाबीन	-	-
		00048	पिपल्दागढी	-	-	सोयाबीन	-	-
		00050	खल बुजुर्ग	-	-	सोयाबीन	-	-
		00052	बैगन्दा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का
		00053	बलवाडा	-	-	सोयाबीन	-	-
		00028	मेहगांव	-	-	सोयाबीन	-	मक्का
		00029	सेमल्दा	-	-	सोयाबीन	-	-
		00039	पिपल्या खुट	-	-	सोयाबीन	-	-
		00043	हतनावर	-	-	सोयाबीन	-	-
धार								
	तिरला							
		00001	धामदा	-	-	सोयाबीन	-	-
		00002	अकोदा	-	-	सोयाबीन	-	-
		00003	खरसोडा	-	-	सोयाबीन	-	-

		00004	सिमलावदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	आहू		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	चंदवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	धिलूर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	बोधवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	गलावदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	नान्दनखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	खरमपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	चिकल्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	मतलबपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	ज्ञानपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	तिरला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	गंगानगर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	माफीपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	मूसापुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	मोहनपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	मवडीपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	चाकल्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	भूतीबावडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	सियारी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	खिडक्याकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	सेमलीपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	आमला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	सतीपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	बडलीपुराकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	कछावदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	भुवादा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	जूनापानी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	सादडियाकुआ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	खेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	उकाला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	कुवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	नीमखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	अन्जनाई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	सेवसिंगपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	बोरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	अंबापुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	छोटा उमरीया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	कोठडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	बयडीपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	खादन बुजुर्ग		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	सीतापाट		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	हिम्मतगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	पाडल्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	बागडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	दिलावरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	अडवी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	सतकनपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	सिंधकआ		-	सोयाबीन	-	-	-
	धार								
		00054	देदला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	धरावरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	देतगी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	बगडीतुक		-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	कलमखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	बायखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	बनेडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	गुणावद		-	सोयाबीन	-	-	-

		00062	उटावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	जामन्दा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	सुनारखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	जैतपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	रतनागरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	मालीवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	नीगांव बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	तोरनाद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	लसूडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	लबरावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	पचलाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	गरडावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	खडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	बिलोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	कराडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	पिंजराया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	कलसाडा बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	पिपल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	खेरोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	तीसगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	अनारद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00084	उमरिया बडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	सामर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	सकतली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00087	रामपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00088	अंतराय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00089	गोविन्दपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00090	सादलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00091	जुहावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00092	बगडीताज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00093	कण्डारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00094	केसूर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00095	बिजुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00096	एकलदुना, धार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00097	बडछापरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00098	नेकपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00099	बग्गड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00100	लोहारी बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00101	नवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00102	कोट भिडोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00103	सिरसोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00104	पिपल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00105	कलसाडा खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00106	लेबड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00107	सेजवाया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00108	दंगोठा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00109	डेहरी	-	सोयाबीन	-	-	-
			नालछा					
		00139	गुलवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00140	डिगलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00141	रतवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00142	बिलोदा खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00143	कठोडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00144	तलवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00145	मियापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00146	दुकनीमाफी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00147	मेघापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00148	शिकारपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00149	कछाल			सोयाबीन	-	-	-
		00150	करम तलाई			सोयाबीन	-	-	-
		00151	भीलतलवाडा			सोयाबीन	-	-	-
		00152	मोगराबाव			सोयाबीन	-	-	-
		00154	तीतीपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00155	माण्डव			सोयाबीन	-	-	-
		00156	मालीपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00157	उमरपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00158	पनाला			सोयाबीन	-	-	-
		00160	भीलबरखेडा			सोयाबीन	-	-	-
		00161	आमखो			सोयाबीन	-	-	-
		00162	सोडपुर			सोयाबीन	-	-	-
		00163	काकलपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00164	नालछा			सोयाबीन	-	-	-
		00165	जीरापुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00166	लुन्हेरा			सोयाबीन	-	-	-
		00167	आली			सोयाबीन	-	-	-
		00168	बगडी			सोयाबीन	-	-	-
		00169	सगडी			सोयाबीन	-	-	-
		00172	कुराडिया			सोयाबीन	-	-	-
		00173	भडक्या			सोयाबीन	-	-	-
		00174	सरायतालाब			सोयाबीन	-	-	-
		00175	मोवासजामन्या			सोयाबीन	-	-	-
		00176	बंजारीपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00177	बेडवापुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00178	चोरबावडीपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00179	गुलरझीपुरा			सोयाबीन	-	-	-
	सागौर								
		00110	सेजवानी			सोयाबीन	-	-	-
		00111	एकलदूना दिगठान			सोयाबीन	-	-	-
		00112	नारायणपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00113	बकसाना			सोयाबीन	-	-	-
		00114	बछडावदा			सोयाबीन	-	-	-
		00115	चंबलबरोदा			सोयाबीन	-	-	-
		00116	सुलावड			सोयाबीन	-	-	-
		00117	मण्डलावदा			सोयाबीन	-	-	-
		00118	सागौर			सोयाबीन	-	-	-
		00119	खेडा			सोयाबीन	-	-	-
		00120	बरदरी			सोयाबीन	-	-	-
		00121	गवला			सोयाबीन	-	-	-
		00122	पीथमपुर			सोयाबीन	-	-	-
		00123	खण्डवा			सोयाबीन	-	-	-
		00124	आसूखेडी			सोयाबीन	-	-	-
		00125	चन्दनखेडी			सोयाबीन	-	-	-
		00126	जलवाय			सोयाबीन	-	-	-
		00127	झाडीबरोदा			सोयाबीन	-	-	-
		00128	कुंवरसी			सोयाबीन	-	-	-
		00129	अचाना			सोयाबीन	-	-	-
		00130	रायण			सोयाबीन	-	-	-
		00131	बिल्लोद			सोयाबीन	-	-	-
		00132	नाईबरोदा का;			सोयाबीन	-	-	-
		00133	सिलोटिया			सोयाबीन	-	-	-
		00134	बाछनपुर			सोयाबीन	-	-	-
		00135	महाराजखेडी			सोयाबीन	-	-	-
		00136	पिपल्या			सोयाबीन	-	-	-
		00137	दिगठान			सोयाबीन	-	-	-
		00138	उज्जैनी			सोयाबीन	-	-	-

बदनावर	कानवन								
		00048	रतनपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	रेशमगारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	जलोदखेता	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	कमैडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	शेरगढ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	किशनपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	चिराखान	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	इन्द्रावल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	फूलेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	खिलेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	टकरावदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	तारोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	सिलोदा खुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	कडोद कला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	छायनखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	बामन्दाकला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	दतीगारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	मौसार	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	बिडवाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	कोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	गाजनोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	सेमल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	रीटोडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	भाट बामन्दा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	कवनारिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	कानवन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	दिवानिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	वरनासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	खडीगारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	सनोली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	जलोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	नागदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	माकनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	मनासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	कसावदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	सिलोदा बुजुर्ग	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00084	पलवाडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	नागोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	मुरडका	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00087	ढोलाना खुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00088	पायकुण्डा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00089	खाचरोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00090	बाबरडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	बदनावर								
		00001	बोरदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	बोरदी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00003	जाबडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	तिलगारा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	करणपुरा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00006	रूपाखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	मूलथान	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	भुवानीखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	खेरवास	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	धमाना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	काछी बडोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	करोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-

		00013	जवासिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	पालीबडोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	ढोलाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	पंचकवासा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	कंकराज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	पिटगारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	घटगारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बालोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	कठोडिया बडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	पडुनिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	कनवासा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	छोखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	बोराली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	सकतली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	मोगल्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	बदनावर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00029	भैरुपाडा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00030	शम्भूपाडा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00031	खेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	चंदवाडिया कला		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00033	संदला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	दोत्रया		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00035	बखतपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	भैसोला		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00037	धारसी खेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	मुंगेला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	सैमलखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	लिलीखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	छायन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	सांगवी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	हनुमत्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	डेलची		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	डेरखा ऊर्फ भरतगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	निदवान्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	बखतगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
	मनावर								
		बाकानेर							
		00066	पाडला		-	-	-	मक्का	-
		00067	आमसी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00068	मण्डलावदा		-	-	-	मक्का	-
		00069	पिपल्या मोटा		-	-	-	मक्का	-
		00070	उमरबन खुर्द		-	-	-	मक्का	-
		00071	करोडिया खुर्द		-	-	-	मक्का	-
		00072	पाठामोटी		-	-	-	मक्का	-
		00074	सुराणी		-	-	-	मक्का	-
		00075	लवाणी		-	-	-	मक्का	-
		00076	साकल्दा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00077	उखल्दा		-	-	-	मक्का	-
		00078	उमरबन कला		-	-	-	मक्का	-
		00079	बडिया		-	-	-	मक्का	-
		00080	चौकी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00081	बोहारला		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00082	दसई		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00084	भानपुर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00085	धनोरा		-	-	-	मक्का	-
		00086	कलालदा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00087	कवाड		-	सोयाबीन	-	मक्का	-

		00088	खेरवा जागीर					मक्का	
		00089	रालामण्डल					मक्का	
		00090	उटावद			सोयाबीन		मक्का	
		00091	कछादद					मक्का	
		00092	ककरोदिया मोटा					मक्का	
		00094	प्रतापपुर दाभ्या					मक्का	
		00095	कालीबावडी			सोयाबीन		मक्का	
		00096	अहेरवास					मक्का	
		00097	बालीपुर बुजुर्ग					मक्का	
		00098	रामाधामा			सोयाबीन		मक्का	
		00099	दाभड			सोयाबीन		मक्का	
		00100	लुन्हेरा बुजुर्ग			सोयाबीन		मक्का	
		00102	धनखेडी					मक्का	
		00105	बाकानेर			सोयाबीन		मक्का	
		00106	रणगांव					मक्का	
		00108	बायखेडा					मक्का	
		00110	डेडगांव			सोयाबीन		मक्का	
		00111	जामन्या			सोयाबीन		मक्का	
		00112	मोद कानापुर			सोयाबीन		मक्का	
		00113	देवलरा					मक्का	
		00114	टवलाई बुजुर्ग					मक्का	
		00115	झीर्वी					मक्का	
		00116	अमलाठा					मक्का	
		00120	मिजीपुर			सोयाबीन		मक्का	
		00121	बडदा			सोयाबीन		मक्का	
		00122	मलनगांव			सोयाबीन		मक्का	
		00126	गोगावा					मक्का	
		00119	कुवाली			सोयाबीन		मक्का	
		00123	पटवार			सोयाबीन		मक्का	
			मनावर						
		00001	चिराखान					मक्का	
		00002	राजुखेडी			सोयाबीन		मक्का	
		00005	सीतापुरी					मक्का	
		00006	उदियापुर			सोयाबीन		मक्का	
		00007	खण्डलाई			सोयाबीन		मक्का	
		00008	जलखा			सोयाबीन		मक्का	
		00009	टेमरनी			सोयाबीन		मक्का	
		00010	मोराड					मक्का	
		00011	महाली			सोयाबीन		मक्का	
		00012	देवरा			सोयाबीन		मक्का	
		00021	बिडपुर			सोयाबीन		मक्का	
		00023	सोडल					मक्का	
		00024	निगरनी			सोयाबीन		मक्का	
		00025	बडगांव			सोयाबीन		मक्का	
		00026	पिपल्या			सोयाबीन		मक्का	
		00027	मनावर			सोयाबीन		मक्का	
		00030	दसवी					मक्का	
		00032	अंजनिया			सोयाबीन		मक्का	
		00033	सिघाना			सोयाबीन		मक्का	
		00034	बोरुद					मक्का	
		00035	देदला					मक्का	
		00039	जाटपुर			सोयाबीन		मक्का	
		00044	पंचखेडा			सोयाबीन		मक्का	
		00045	मेहताखेडी			सोयाबीन		मक्का	
		00046	करोदिया खुर्द					मक्का	
		00048	कोसवाडा					मक्का	
		00050	गणपुर			सोयाबीन		मक्का	
		00052	अजन्दीकोट			सोयाबीन		मक्का	

		00053	देवगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	कवठी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	एकलबाया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	लंगुर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00058	सीरसाला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00063	अजन्दा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	लिम्बी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00037	देवला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	बागल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	सीरसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	गांगली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	करोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	वायल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	पेरखड	-	सोयाबीन	-	-	-
	सरदारपुर							
	अमझेर							
		00077	उण्डेली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	खरेली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	गोलपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	बोरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	मिण्डा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00084	हातोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	मोरगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00090	बान्देडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00091	खाकेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00092	चालनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00093	अमझेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00094	राजपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00095	मारोल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00096	सुल्तानपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
	दसई							
		00019	खुटपला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	कोठडा कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	चोटियाबालोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	हनुमत्या पदमपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	टाण्डा खेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	दसई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	भरावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	घटोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	दन्तौली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	हनुमत्या कांग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	लेडगाव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	कपासस्थल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00087	बालोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00088	केसरपुरा तेली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00089	सगवाल	-	सोयाबीन	-	-	-
	बरमण्ड							
		00001	कचनारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	राजोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	निपावली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	साजोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	नन्दलाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	हमत्या साजोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	बसलाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	गोदीखेडा राजोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	ठाकर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	सदला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	देवीखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	सलवा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00012	लाबरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	अकोल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	सिन्दूरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	पटोलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	बरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	बरमण्डल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	चन्दोडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बरमखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	बोडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	मौलाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	जौलाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	देदला	-	सोयाबीन	-	-	-
	सरदार							
		00025	भानगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	टिमायची	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	सोनगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	महापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	दत्तीगाव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	जुनापानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	आम्बा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	कुशलपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	माछलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	पिपल्याभान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	अमझर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	बयडीपाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	करनावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	भाटियाबडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	सेमल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	चालनीमाता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	उटावा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	फुटतालाब	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	भेरुपाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	आमल्या खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	भौलखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	गुमानपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	तिरला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	छडावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	धुलेट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	पिपरानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	बिमरोड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	कंजरोटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	रिंगनोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	नयापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	बिछिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	भोपावर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	पटलावदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	सरदारपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	अमोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	नरसिंह देवला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	बोला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	बोदली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	टाण्डाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	बडवैली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	श्यामपुरा ठाकुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	फुलगावडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	बडोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	खमालिया	-	सोयाबीन	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
देवास										
मूल अधिसूचना क्रमांक 189, दिनांक 23.4.2016 में निम्नलिखित हल्कों के समक्ष अंकित फसलों को जोड़ा जाता है										
	बागली	उदयनगर	77	धारड़ी			सोयाबीन			